



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 24—अप्रैल 30, 2010 (वैशाख 4, 1932)

No. 17]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 24—APRIL 30, 2010 (VAISAKHA 4, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 2010

सं. 192, दिनांक 30 मार्च 2010—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को 15 दिसम्बर 2009 से अपने व्यक्तिक स्टाफ में अवैतनिक सर्जन के रूप में नियुक्ति करती हैं:—

निजी स्टाफ

अवैतनिक सर्जन की नियुक्ति

चिकित्सा सेवा थल सेना का अधिकारी

ले. जनरल एस आर मेहता, वीएसएम (एमआर-02985के), डीजीएमएस (आर्मी)

चिकित्सा सेवा नौ सेना का अधिकारी

सर्जन वाइस एडमिरल वी के सक्सेना, एवीएसएम, वीएसएम (एमआर-02987पी), डीजीएमएस (नेवी)

विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी

ले. जनरल पी भार्गव, वीएसएम (एमआर-03318एच), डीजीएचएस (एफ)

महानिदेशक सेना दन्त चिकित्सा सेवा (पदासीन)

ले. जनरल एस बी सहजपाल, एवीएसएम, वीएसएम (डीआर-10270एच), डीजीडीएस

यश पांडे

ब्रिगे

स्थानापन्न अतिथि मनिससेचि सेवा

सेना शाखा

सं. 193, दिनांक 30 मार्च 2010—राष्ट्रपति, निम्नलिखित नियुक्तियां सहर्ष प्रदान करते हैं:—

नियमित सेना

स्थाई आयोग (विशेष सूची)

निम्नलिखित जे सी ओज/एन सी ओज को सेना अनुदेश 85/74 के अन्तर्गत 24 जुलाई 2009 से लेफ्टिनेंट के पद पर संलिखित श्रेणी व निम्नलिखित वरीयता के क्रम में स्थाई आयोग (विशेष सूची) में अनुदान प्रदान किया जाता है, उन सभी जे सी ओज को जिनकी जे सी ओज और अन्य पद में कुल मिलाकर आठ वर्ष या उससे अधिक सेवा है, और जो इस

अधिसूचना में सम्मिलित हैं, उन्हें सेना अनुदेश 85/74 के सब पैरा 7(सी) के अन्तर्गत केवल वेतन के लिए दो साल की वरीयता दी जाती है:—

पद, नाम, सेना नम्बर, एलएल सं., पिछली आर्म/सर्विस और श्रेणी

सूबेदार मेजर सिद्धार्थ टी राम चन्द्रन (जेसी-325848डब्ल्यू) (एसएल-05008डब्ल्यू), इंजीनियर्स, आईई ईएम/आईईएम

सूबेदार मेजर विमल राज के (जेसी-224968एन) (एसएल-05009वाई), इंजीनियर्स, आईई बीआर/एसडब्ल्यू

सूबेदार किताब सिंह रांगी (जेसी-207659पी) (एसएल-05010एन), इंजीनियर्स, आईई बीआर/एसडब्ल्यू

सूबेदार संजय त्यागी (जेसी-325681एक्स) (एसएल-05011डब्ल्यू), इंजीनियर्स, आईई बीआर/एसडब्ल्यू

सूबेदार सतेन्द्र सिंह चौहान (जेसी-370982एन) (एसएल-05012वाई), सिग्नल्स, टोट

सूबेदार जय प्रकाश (जेसी-330385डब्ल्यू) (एसएल-05013एफ), इंजीनियर्स, आईई बीआर/एसडब्ल्यू

सूबेदार वैकटेशन ए (जेसी-439466एम) (एसएल-05014के), इंजीनियर्स, रिकार्ड आफिसर

नायब सूबेदार जी मनिकंडन (जेसी-376490एल) (एसएल-05015एम), सिग्नल्स, टोट

नायब सूबेदार सुधाकर राव अन्नंतू (जेसी-376599एल) (एसएल-05016पी), सिग्नल्स, टोट

नायब सूबेदार महाबीर सिंह कौशिक (जेसी-376785एफ) (एसएल-05017एक्स), सिग्नल्स, रिकार्ड आफिसर

नायब सूबेदार ओम प्रकाश चौधरी (जेसी-450360ए) (एसएल-05018ए), इन्फैन्ट्री, रिकार्ड आफिसर

नायब सूबेदार सुरेश सिंह बिष्ट (जेसी-331135एफ) (एसएल-05019एच), इंजीनियर्स, आईई ईएम/आईईएम

नायब सूबेदार रमनदीप सिंह (जेसी-762186के) (एसएल-05020एक्स), ईएमई, ईएमई

नायब सूबेदार प्रकाश कुमार के (जेसी-300091एन) (एसएल-05021ए), एएडी, टीईओ (एएडी)

नायब सूबेदार उष्णिष्कृष्णन एस (जेसी-331641एम) (एसएल-05023एल), इंजीनियर्स, आईई बीआर/एसडब्ल्यू

हवलदार रतिकान्त महापात्र (जेसी-9511997डब्ल्यू) (एसएल-05024एन), आईसी, रिकार्ड आफिसर

हवलदार भरत कुमार रथ (जेसी-13753776एफ) (एसएल-05025डब्ल्यू), एससी, रिकार्ड आफिसर

हवलदार संतोष सिंह (जेसी-9512600एल) (एसएल-05026वाई), आईसी, रिकार्ड आफिसर

हवलदार सुशील कुमार पाठक (जेसी-6383742ए) (एसएल-05027एफ), एससी, रिकार्ड आफिसर

हवलदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-15371062पी) (एसएल-05028के), सिग्नल्स, सीफर आफिसर

हवलदार नीलेश श्रीवास्तव (जेसी-9512635एफ) (एसएल-05029एम), आईसी, रिकार्ड आफिसर

हवलदार हरीश सिंह (जेसी-9512644एच) (एसएल-05030एफ), आईसी, रिकार्ड आफिसर

हवलदार संजय गिरवाल (जेसी-2786780डब्ल्यू) (एसएल-05031के), इन्फैन्ट्री, रिकार्ड आफिसर

हवलदार मो. फिरोज खान (जेसी-15365640एच) (एसएल-05032एम), सिग्नल्स, रिकार्ड आफिसर

हवलदार सी पी साबु (जेसी-4561664एल) (एसएल-05033पी), इन्फैन्ट्री, रिकार्ड आफिसर

हवलदार विद्याधर सिंह (जेसी-6390951ए) (एसएल-05034एक्स), एससी, रिकार्ड आफिसर

हवलदार सुदर्शन कुमार ठाकुर (जेसी-14917575एक्स) (एसएल-05035ए), मैक, रिकार्ड आफिसर

हवलदार तांडेल निलेश भास्कर (जेसी-3396079के) (एसएल-05036एच), इन्फैन्ट्री, रिकार्ड आफिसर

हवलदार मजहर हुसैन खान (जेसी-9099212वाई) (एसएल-05037एल), इन्फैन्ट्री, रिकार्ड आफिसर

हवलदार थिरूमुरगन टी (जेसी-9102255एफ) (एसएल-05038एन), इन्फैन्ट्री, रिकार्ड आफिसर

हवलदार ईश्वर दत्त शर्मा (जेसी-14924262एफ) (एसएल-05039डब्ल्यू), मैक, रिकार्ड आफिसर

हवलदार पाल्टु दास (जेसी-13996221एक्स) (एसएल-05040एल), एससी, रिकार्ड आफिसर

हवलदार अजीत सिंह (जेसी-6390617वाई) (एसएल-05041एन), एससी, रिकार्ड आफिसर

हवलदार के अशोक कुमार (जेसी-6936749डब्ल्यू) (एसएल-05042डब्ल्यू), एओसी, रिकार्ड आफिसर

हवलदार/क्लर्क चार्ल्स वी (जेसी-4364897एन) (एसएल-05043वाई), इन्फैन्ट्री, रिकार्ड आफिसर

हवलदार/क्लर्क संजय सिंह (जेसी-4365518वाई) (एसएल-05044एफ), इन्फैन्ट्री, रिकार्ड आफिसर

हवलदार हेमा चन्द्रन प्रधान (जेसी-6393652डब्ल्यू) (एसएल-05045के), एससी, रिकार्ड आफिसर

हवलदार सुनील कुमार शौरान (जेसी-4569499ए) (एसएल-05047पी), इन्फैन्ट्री, रिकार्ड आफिसर

हवलदार धनेष ईपी (जेसी-6393932ए) (एसएल-05048एक्स), एससी, रिकार्ड आफिसर

हवलदार सुधिरंजन महान्ती (जेसी-15666881एन) (एसएल-05049ए), सिग्नल्स, रिकार्ड आफिसर

एचएमटी सुनील ए के (जेसी-14628475एन) (एसएल-05050पी), ईएमई, ईएमई,

हवलदार देवेन्द्र कुमार राठौर (जेसी-6394301के) (एसएल-05051एक्स), एससी, रिकार्ड आफिसर

हवलदार किलारी वी वी (जेसी-1589552वाई) (एसएल-05052ए), इंजीनियर्स, रिकार्ड आफिसर

हवलदार दासरी वेंकटेश्वर राव (जेसी-15370491के) (एसएल-05053एच), सिग्नल्स, रिकार्ड आफिसर

हवलदार राजेश कुमार शर्मा (जेसी-5454279ए) (एसएल-05054एल), इन्फैन्ट्री, रिकार्ड आफिसर

नायक रवीन्द्र प्रताप सिंह (जेसी-15373071पी) (एसएल-05055एन), सिग्नल्स, रिकार्ड आफिसर

नायक संजय कुमार (जेसी-3998398एम) (एसएल-05056डब्ल्यू), इन्ट, रिकार्ड आफिसर

नायक महादेश्वरा आर (जेसी-14810597वाई) (एसएल-05057वाई), एससी, रिकार्ड आफिसर

नायक सुशील कुमार (जेसी-1497425के) (एसएल-05058एफ), इंजीनियर्स, बेसटो

नायक शैलेन्द्र सिंह यादव (जेसी-14428221एम) (एसएल-05059के), आर्टी, एजुकेशन आफिसर

राहुल शर्मा

ले कर्नल सहा से सचिव एमएस-8बी

#### तटरक्षक मुख्यालय

सं. 194, दिनांक 30 मार्च 2010--राष्ट्रपति, तटरक्षक में निम्नलिखित को, उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से सहायक कमांडेंट (जीडी/तकनीकी) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

सामान्य ड्यूटी/पायलट

नाम, नियुक्ति, कार्य आरम्भ तिथि तथा वैयक्तिक नंबर

सी विजय कुमार, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 17 जनवरी 2008, 0745-क्यू

राहुल शर्मा, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 03 फरवरी 2008, 0746-एस

वरुण राजपूत, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 03 फरवरी 2008, 0747-बी

उमेश शर्मा, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 23 जून 2008, 0748-एक्स

प्रेमजीत सागोलसेम, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 23 जून 2008, 0749-सी

कोनार्क शर्मा, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 23.06.08, 0750-डी

एल लुप्राजौ सिंह, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 23 जून 2008, 0751-ई

ऋषभ कुमार सक्सेना, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 23 जून 2008, 0752-जे

शम्मी शर्मा, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 01 जुलाई 2008, 0753-एल

टी एस पिल्लुवाल, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 02 जुलाई 2008, 0754-एम

बबलू कुमार, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 07 जुलाई 2008, 0755-पी

आदित्य प्रताप सिंह, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 07 जुलाई 2008, 0756-क्यू

सन्नी दियो, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 07 जुलाई 2008, 0757-एस

प्रतीप मोडक, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 21 दिसम्बर 2008, 0758-वी

श्याम किशोर, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 21 दिसम्बर 2008, 0759-एक्स

बिरजित कुमार सिंह थोचोम, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 21 दिसम्बर 2008, 0760-सी

चिंगांगबम रोमेश सिंह, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 21 दिसम्बर 2008, 0761-डी

पुष्पेन्द्र सिंह, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 21 दिसम्बर 2008, 0762-ई

अमित हुड्डा, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 21 दिसम्बर 2008, 0763-जे

सुरेन्द्र कुमार करवासरा, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 21 दिसम्बर 2008, 0764-एल

प्रबन्धसिंमरण जावा, सहायक कमांडेंट (जीडी/पीएन) वेतनमान पी बी-3,  
रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त वे दो वर्षों  
की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 25 जून 2009, 0794-डी



आनंद बी, सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त, वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 25 जून 2009, 5114-बी

शरत गिरीश पी, सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त, वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 17 जुलाई 2009, 4174-एल

अखिल विजय जोशी, सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त, वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 17 जुलाई 2009, 4175-एम

आनंद कुमार, सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त, वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 17 जुलाई 2009, 4176-पी

विनायक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त, वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 17 जुलाई 2009, 4177-क्यू

बी डी गायकवाड, सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त, वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 31 अगस्त 2009, 4178-एस

नरपत सिंह, सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त, वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 31 अगस्त 2009, 4179-बी

आर पी जायसवाल, सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त, वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 31 अगस्त 2009, 4180-एक्स

कुमार मंगलम, सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त, वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 17 जुलाई 2009, 5115-एक्स

विकास दलाल, सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त, वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 17 जुलाई 2009, 5116-सी

आशीष पांडेय, सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त, वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 17 जुलाई 2009, 5117-डी

मनोज कुमार शर्मा, सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त, वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 31 अगस्त 2009, 5118-ई

के दत्त, सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त, वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 31 अगस्त 2009, 5119-जे

पुष्पेन्द्र एस पवार, सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त, वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 31 अगस्त 2009, 5120-एल

टी के सिंह, सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त, वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 31 अगस्त 2009, 5121-एम

वी नटराजन, सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त, वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 31 अगस्त 2009, 5122-पी

बी डी पास्टी, सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान पी बी-3, रुपए 15,600--39,100 + ग्रेड वेतन रुपए 5,400/- में नियुक्त, वे दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, 31 अगस्त 2009, 5123-क्यू

टी सी शर्मा  
अवर सचिव (तर)

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 195, दिनांक 31 मार्च 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं--

राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से 15,600--39,100/- (पे बैंड-3)+5,400/- ग्रेड पे रुपये के वेतनमान में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं--

पिन संख्या नाम, स्थापना/प्रयोगशाला और नियुक्ति की तिथि

2007AB1339 श्री एफ यू जोन पॉल, 2 एएफएसबी, मैसूर, 12 दिसम्बर 2007

2009AB1507 सुश्री निश्चिता ब्राके, 4 एएफएसबी, वाराणसी, 09 अप्रैल 2009

2008AB1526 श्री सौरभ महेशवरी, एडीई, बेंगलूर, 03 दिसम्बर 2008

2008AB1547 श्री देवेश कुमार, एडीई, बेंगलूर, 03 दिसम्बर 2008

2009AB1466 सुश्री वी दीपा, एएसएल, हैदराबाद, 08 अप्रैल 2009

2008AB1033 श्री अमित मीणा, अनुराग, हैदराबाद, 21 मई 2008

2008AB1072 श्री मनमहदाराव मेंदा, एएसएल, हैदराबाद, 21 मई 2008

2008AB1615 श्री नवीन कुमार जी, एएसएल, हैदराबाद, 03 दिसम्बर 2008

2008AB1411 सुश्री एम रेशमा गोपाल, एएसएल, हैदराबाद, 21 मई 2008

2008AB1086 श्री गौतम बनिक, एएसएल, पानागढ़, 21 मई 2008

2008AB1048 सुश्री उर्वशी शर्मा, एआरडीई, पूणे, 21 मई 2008

2008AB1065 श्री अमितेश गोयल, एआरडीई, पूणे, 21 मई 2008

2008AB1639 श्री मनदीप सिंह, केब्स, बेंगलूर, 30 सितम्बर 2008

2008AB1556 श्री आशुतोष पांडे, केब्स, बेंगलूर, 03 दिसम्बर 2008

2008AB1538 श्री पीयूष कुमार चौबे, केब्स, बेंगलूर, 03 दिसम्बर 2008

2007AB1074 श्री भास्कर रंजन कुजुर, केब्स, बेंगलूर, 23 मई 2007

2008AB1510 श्री सुखेन साहा, केब्स, बेंगलूर, 15 सितम्बर 2008

2008AB1139 श्री सुनील कांत द्विवेदी, केब्स, बेंगलूर, 21 मई 2008

2008AB1106 श्री विवेक कुमार, केब्स, बेंगलूर, 21 मई 2008

2008AB1145 श्री महावीर प्रसाद, केयर, बेंगलूर, 21 मई 2008

2007AB1049 श्री श्रीजेश एस, केयर, बेंगलूर, 23 मई 2007

- 2007AB1086 श्री जी विश्वनाथापा मन्नु, सीमिलेक, बेंगलूर,  
14 नवम्बर 2007
- 2007AB1336 श्री गोली चंद्रा शेखर, सीवीआरडीई, चैन्नई,  
31 दिसम्बर 2007
- 2008AB1160 श्री राजारमन वी, सीवीआरडीई, चैन्नई, 21 मई 2008
- 2007AB1348 श्री ब्रजेश सिंह, कमांड अस्पताल (ईसी), कोलकता,  
24 दिसम्बर 2007
- 2008AB1235 सुश्री पायल सक्सेना, डील, देहरादून, 21 मई 2008
- 2008AB1254 सुश्री धन्या वी, डीबेल, बेंगलूर, 21 मई 2008
- 2008AB1201 सुश्री गौरव गुप्ता, डेयर, बेंगलूर, 21 मई 2008
- 2008AB1203 श्री देवेन्द्र उपाध्यय, डेयर, बेंगलूर, 21 मई 2008
- 2007AB1292 श्री राहुल शर्मा, डील, देहरादून, 14 नवम्बर 2007
- 208AB1291 सुश्री शीलू सिंह, डीएलआरएल, हैदराबाद, 21 मई  
2008
- 2008AB1295 श्री एम एस रेडी एम, डीएलआरएल, हैदराबाद,  
21 मई 2008
- 2008AB1296 श्री जे रेडी गमपाला, डीएलआरएल, हैदराबाद,  
21 मई 2008
- 2008AB1266 श्री जे नंद किशोर, डीएलआरएल, हैदराबाद, 21 मई  
2008
- 2008AB1642 श्री मंजीत सिंह, डीएलआरएल, हैदराबाद, 15 सितम्बर  
2008
- 2007AB1337 श्री ए के सोनकर, डीएमएसआरडीई, कानपुर,  
14 नवम्बर 2007
- 2008AB1326 श्री अजीत शंकर सिंह, डीएमएसआरडीई, कानपुर,  
21 मई 2008
- 2009AB1004 श्री वाजिंदर सिंह अरोड़ा, डीएमआरएल, हैदराबाद,  
02 अप्रैल 2009
- 2009AB1502 डॉ. अशोक कुमार, डीहार, लेह, 25 मार्च 2009
- 2008AB1373 श्री सुरेश एल, डीआरडीएल, हैदराबाद, 21 मई 2008
- 2007AB1135 श्री पांडु करणतोथ, डीआरडीएल, हैदराबाद, 23 मई  
2007
- 2008AB1561 श्री उशनीश बनर्जी, जीटीआरई, बेंगलूर, 03 दिसम्बर  
2008
- 2008AB1021 श्री ललित सिंह बिष्ट, जीटीआरई, बेंगलूर, 21 मई  
2008
- 2008AB1018 श्री संतोष मुथे, जीटीआरई, बेंगलूर, 21 मई 2008
- 2008AB1020 श्री राजेश सुनद्रानी, जीटीआरई, बेंगलूर, 21 मई  
2008
- 2008AB1528 श्री अवतार सिंह, एचईएमआरएल, पूणे, 03 दिसम्बर  
2008
- 2009AB1465 सुश्री स्वाति सचदेवा, एचईएमआरएल, पूणे, 14 मई  
2009
- 2008AB1592 श्री राकेश कुमार गर्ग, एचईएमआरएल, पूणे,  
03 दिसम्बर 2008
- 2008AB1070 श्री सुबीर कुमार मंडल, एचईएमआरएल, पूणे,  
21 मई 2008
- 2008AB1098 सुश्री सीमा गौतम, इनमास, दिल्ली, 21 मई 2008
- 2007AB1019 श्री के चौधरी, आईएनएस शिवाजी, लोनावाला,  
14 नवम्बर 2007
- 2007AB1163 श्री सुरेश कुमार, ईसा, दिल्ली, 14 नवम्बर 2007
- 2004AB1172 श्री एस दिनेश रंजन, आईटीआर, बालासोर,  
07 जनवरी 2004
- 2008AB1588 श्री राजेश कुमार, आईटीआर, बालासोर, 03 दिसम्बर  
2008
- 2007AB1037 श्री अशोक कुमार, एलआरडीई, बेंगलूर, 14 नवम्बर  
2007
- 2008AB1181 सुश्री ममता कुमारी, एलआरडीई, बेंगलूर, 21 मई  
2008
- 2007AB1040 श्री कुलवंत सिंह, एलआरडीई, बेंगलूर, 14 नवम्बर  
2007
- 2008AB1166 श्री विजय कुमार कश्यप, एलआरडीई, बेंगलूर,  
21 मई 2008
- 2008AB1167 श्री अनिरुद्ध साने, एलआरडीई, बेंगलूर, 21 मई  
2008
- 2005AB1081 श्री के पी मंजेरकर, एमटीआरडीसी, बेंगलूर,  
14 अप्रैल 2005
- 2007AB1250 सुश्री विनीता साहू, एनएसटीएल, विशाखापत्तनम,  
23 मई 2007
- 2008AB1228 श्री पी एन राजू, एनएसटीएल, विशाखापत्तनम,  
21 मई 2008
- 2008AB1216 श्री सुनील कुमार मिश्रा, एनएसटीएल, विशाखापत्तनम,  
21 मई 2008
- 2009AB1504 श्री वेनु आनंद, एनएसटीएल, विशाखापत्तनम,  
14 अक्टूबर 2009
- 2008AB1306 श्री रमेश आर, आरसीआई, हैदराबाद, 21 मई 2008
- 2008AB1281 श्री एम रामास्वामी, आरसीआई, हैदराबाद, 21 मई  
2008
- 2008AB1279 श्री पंकज कुमार सिंह, आरसीआई, हैदराबाद, 21 मई  
2008



2008AB1327 श्री सुभाता कुमार राउत, आरसीएमए, कोरापूत,  
21 मई 2008

2007AB1214 श्री संदीप कुमार गुप्ता, आरएंडडीई (ई), पूणे,  
25 मई 2007

2008AB1609 श्री संतोष बोरले, एसएफसी, जगदलपुर, 03 दिसम्बर  
2008

2009AB1501 श्री दिनेश सिंह, एसएसबी, भोपाल, 01 अप्रैल 2009

2007AB1180 सुश्री ईशा यादव, एसएसपीएल, दिल्ली, 23 मई  
2007

2008AB1363 श्री जितेन्द्र कुमार, एसएसपीएल, दिल्ली, 21 मई  
2008

2008AB1581 श्री योगेश्वर नाथ, टीबीआरएल, चंडीगढ़, 03 दिसम्बर  
2008

2008AB1401 श्री प्रमोद कुमार तिवारी, डब्ल्यूईएसईई, दिल्ली,  
21 मई 2008

टी अब्दुर्रज्जाक  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

#### थल सेना विभाग

सं. 196, दिनांक 31 मार्च 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित भूतपूर्व  
जूनियर कमीशंड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं--

#### नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार मेजर मदन सिंह (जेसी-199321एम), पहले कुमाऊं रेजीमेन्ट,  
22 दिसम्बर 2008

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

सूबेदार विजय कुमार पांडे (जेसी-255301एन), पहले आर्टी रेजीमेन्ट,  
22 दिसम्बर 2008

सूबेदार छेरिंग स्पलवर (जेसी-588122एम), पहले लद्दाख स्कॉट,  
22 दिसम्बर 2008

सूबेदार तिरथ सिंह (जेसी-419159एन), पहले मेक इन्फैंट्री रेजीमेन्ट,  
22 दिसम्बर 2008

सूबेदार रनबीर सिंह (जेसी-239335एक्स), पहले आर्म्ड कोर,  
22 दिसम्बर 2008

सूबेदार चन्दन गिरी गोस्वामी (जेसी-539244एम), पहले कुमाऊं  
रेजीमेन्ट, 22 दिसम्बर 2008

सूबेदार सुरेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-188795एन), पहले बिहार रेजीमेन्ट,  
01 जनवरी 2009

3-34 GI/2010

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-498555एच), पहले सिख रेजीमेन्ट,  
22 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार आर सी अशोक कुमार (जेसी-438557डब्ल्यू), पहले  
मद्रास रेजीमेन्ट, 22 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार प्रमदा कुमार विश्वास (जेसी-240155एफ), पहले  
आर्म्ड कोर, 22 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार अनन्त कुमार मल्ल (जेसी-580014एन), पहले आर्म्ड  
कोर, 22 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार सफुद्दिन अहमद (जेसी-469842के), पहले राज  
राईफल, 22 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार राधा कृष्ण (जेसी-530040वाई), पहले गढ़वाल राईफल,  
22 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार बिरेन्द्र कुमार सिंह (जेसी-558433एल), पहले बिहार  
रेजीमेन्ट, 01 जनवरी 2009

प्रदीप कुमार  
अवर सचिव

#### थल सेना शाखा

सं. 197, दिनांक 31 मार्च 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित  
पदोन्नतियां करते हैं--

मेजर जनरल (व समकक्ष) से ले जनरल (व समकक्ष) के पद पर

पी भार्गव (एमआर-03318एच), 01 जून 2009 वेतन व पेंशन पर  
बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है।

एच एल काकड़िया (एमआर-03434एल), 01 जून 2009

बी एस राठौर (एमआर-03435एन), 01 जून 2009

डी गांगुली (एमआर-03247एम), 01 अगस्त 2009

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) के पद पर

एम पी मुट्यगिकर (एमआर-03954डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008  
वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 नवम्बर 2008  
से दी जाती है।

एस के नेमा (एमआर-03848एक्स), 07 दिसम्बर 2008 वेतन व  
पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03 नवम्बर 2008 से दी  
जाती है।

एस ए क्रूज (एमआर-03447एच), 10 फरवरी 2009 वेतन व पेंशन  
पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2009 से दी जाती  
है।

के के सिंह (एमआर-03449एन), 10 फरवरी 2009 वेतन व पेंशन  
पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2009 से दी जाती  
है।

आर पी चौबे (एमआर-04188एक्स), 10 फरवरी 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जनवरी 2009 से दी जाती है।

एम एन श्रीराम (एमआर-04301एफ), 01 जुलाई 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है।

हरिन्दर सिंह (एमआर-03582डब्ल्यू), 11 जून 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 मई 2009 से दी जाती है।

सुवीर शर्मा (एमआर-04124एम), 01 जुलाई 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 27 मई 2009 से दी जाती है।

शैलेश रोहतगी (एमआर-04361डब्ल्यू), 01 जुलाई 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जून 2009 से दी जाती है।

अजित सिंह नरूला (एमआर-03738एच), 01 जुलाई 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जून 2009 से दी जाती है।

के आर सालगोत्रा (एमआर-04126एक्स), 04 अगस्त 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है।

वाई एस शर्मा (एमआर-04410एन), 01 सितम्बर 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है।

सर्जन कमाण्डर/सर्जन कैप्टन (टीएस) से सर्जन कैप्टन (चयन व समकक्ष) के रैंक में

नाम एवं एम आर नं. व टिप्पणी

डी के घोष (एमआर-06097एम) (75348), 25 फरवरी 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 17 जनवरी 2009 से दी जाती है।

आर रे (एमआर-06211वाई) (75428), 25 फरवरी 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 23 फरवरी 2009 से दी जाती है।

आई आई केडेगे (एमआर-05518एक्स) (75391), 12 अगस्त 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 18 मई 2009 से दी जाती है।

एस नारायण (एमआर-05533एम) (75395), 12 अगस्त 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06 जून 2009 से दी जाती है।

ए के नाईक (एमआर-05583एक्स), 10 सितम्बर 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 15 जुलाई 2009 से दी जाती है।

यश पांडे  
ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मास)

सेना शाखा

सं. 198, दिनांक 1 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में  
वैयक्तिक नं., नाम, आर्म और मूल रैंक की तिथि  
(आईसी-41753) एम एम मसूर, आर्टी, 15 मार्च 2006

तपन कुमार दास  
उप निदेशक एमएस-8ए

थल सेना शाखा

सं. 199, दिनांक 1 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

सर्जन कैप्टन (और समकक्ष) से सर्जन कोमोडोर (और समकक्ष) के पद पर

पवन सरीन (एमआर-03715एफ) (75219), 14 जनवरी 2009

गिरीश गुप्ता (एमआर-05267वाई) (75445), 11 अप्रैल 2009 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09 अप्रैल 2009 से दी जाती है।

मेजर से ले कर्नल के पद पर

शालीन त्रिवेदी (एमआर-07019एफ), एएमसी, 30 जून 2009

ए के सिंह (एमआर-07022एफ), एएमसी, 30 जून 2009

एम एल एन प्रसाद (एमआर-07024एम), एएमसी, 30 जून 2009

प्रफुल मोहन (एमआर-07025पी), एएमसी, 30 जून 2009

गौतम मलिक (एमआर-07027ए), एएमसी, 30 जून 2009

आर के शर्मा (एमआर-07028एच), एएमसी, 30 जून 2009

समीर मेहरोत्रा (एमआर-07032एल), एएमसी, 4 जुलाई 2009

मनोज कुमार के (एमआर-07957एफ), एएमसी, 20 जुलाई 2009

चन्द्र प्रताप सिंह (एमएस-13532वाई) (एमआर-07813वाई), एएमसी, 21 नवम्बर 2008

आर एस राजपूत (एमआर-07033एन), एएमसी, 11 जुलाई 2009

ममता सरीन (एमआर-08003एच), एएमसी, 29 जुलाई 2009

अदनन मसूद (एमआर-07829के), एएमसी, 01 अगस्त 2009  
अलोक गुप्ता (एमआर-07986डब्ल्यू), एएमसी, 04 अगस्त 2009  
सुनिल कुमार आनन्द (एमआर-08104डब्ल्यू), एएमसी, 05 अगस्त 2009

देबाशीष घोष (एमआर-07834पी), एएमसी, 15 अगस्त 2009  
संजय कुमार (एमआर-07771एक्स), एएमसी, 04 दिसम्बर 2008  
सीमा राय (एमआर-07518डब्ल्यू), एएमसी, 20 जनवरी 2009  
समीर कुमार (एमआर-07020डब्ल्यू), एएमसी, 30 जून 2009  
दिलप्रीत सिंह गुलाटी (एमआर-07021वाई), एएमसी, 30 जून 2009  
प्रकाश वीर (एमआर-07031एच), एएमसी, 30 जून 2009

कप्तान से मेजर के पद पर

बिधान चन्द्र (एमआर-08125एम), एएमसी, 30 अगस्त 2009  
सीमा प्रकाश (एमआर-08126पी), एएमसी, 09 अगस्त 2009

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

सेना शाखा

सं. 200, दिनांक 5 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन (श्रीमती) सी आर ऑस्टीन टीए(एएन-1086), एएमएनएस टीए, 6 फरवरी 2009

जय राज

अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 201, दिनांक 5 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों की सहर्ष पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यूएसईएस)

लेफ्टि से कप्तान

डब्ल्यू एस सं., नाम तथा आर्म्स

(डब्ल्यूएस-01227) अनुप्रीत, सिग्नल्स

(डब्ल्यूएस-01228) कनिका गुप्ता, सिग्नल्स

(डब्ल्यूएस-01229) जाधव माधवी दादाभाऊ, सिग्नल्स

(डब्ल्यूएस-01238) शिल्पा फापले, सिग्नल्स

(डब्ल्यूएस-01239) शिखा शर्मा, इंजीनियर्स

(डब्ल्यूएस-01242) अल्पना, ईएमई

(डब्ल्यूएस-01244) सोनिया एल्सा थोमस, इंजीनियर्स

(डब्ल्यूएस-01247) कविता डांगी, ईएमई

(डब्ल्यूएस-01249) काहु रिचा बालकृष्ण, इंजीनियर्स

(डब्ल्यूएस-01251) रमनप्रीत कौर, सिग्नल्स

(डब्ल्यूएस-01252) श्याम प्रभा पी वी, इंजीनियर्स

(डब्ल्यूएस-01253) यादव शिखा, इंजीनियर्स

(डब्ल्यूएस-01256) कविता मिश्रा, ईएमई

(डब्ल्यूएस-01258) स्मिता वर्मा, इंजीनियर्स

(डब्ल्यूएस-01262) ऋतु, इंजीनियर्स

(डब्ल्यूएस-01263) हरलीन कौर, सिग्नल्स

(डब्ल्यूएस-01264) एम जुलागा बीवी, इंजीनियर्स

(डब्ल्यूएस-01265) नवनीत जसवाल, ईएमई

(डब्ल्यूएस-01272) सम्प्रदा मित्तल, सिग्नल्स

(डब्ल्यूएस-01277) नायर श्रीजा श्रीधरन, सिग्नल्स

--18 सितम्बर 2009

जसवन्त सिंह

संयुक्त निदेशक

एमएस-8सी

थल सेना विभाग

सं. 202, दिनांक 5 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार देवी लाल (जेसी-418997डब्ल्यू), 02 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

सूबेदार के चंद्र शेखा राव (जेसी-419195वाई), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राम नरेश (जेसी-420705एफ), 17 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार किपाल सिंह (जेसी-420159ए), 24 अगस्त 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार आलम सिंह (जेसी-420055वाई), 02 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

नायब सूबेदार देवानंद शर्मा (जेसी-420216डब्ल्यू), 02 सितम्बर 2009 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

जे राय चौधरी  
अवर सचिव

यल सेना विभाग

सं. 203, दिनांक 5 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार हरजिन्दर सिंह (जेसी-157859एम), 01 सितम्बर 2009

स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार ईकबाल सिंह (जेसी-841288एफ), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार ललित कुमार थापा (जेसी-841302एच), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार ज्ञान चन्द (जेसी-841318एन), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार दया सागर रमौल (जेसी-841324एफ), 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-498388एक्स), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार धन बहादुर थापा (जेसी-617261एफ), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार मोहम्मद ईलास (जेसी-305714डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार नटवर लाल पान्डे (जेसी-296746पी), 01 अक्टूबर 2009

नायब सूबेदार पराक्रम चन्द (जेसी-448819एच), 01 अक्टूबर 2009

स्थायी सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) हकम सिंह गिल्ल (जेसी-840854के), 01 अक्टूबर 2009

स्थायी सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) एम श्री कन्तन नायर (जेसी-841887एफ), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) खाडे विलास बाबु राव (जेसी-841927एक्स), 01 अक्टूबर 2009

स्थायी सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार याधु नाथ सिंह (जेसी-840428डब्ल्यू), 01 मई 2009

सूबेदार के डी चाथुनी (जेसी-184940एच), 01 जुलाई 2009

सूबेदार अजित सिंह (जेसी-211012वाई), 01 अगस्त 2009

स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार रोमल सिंह (जेसी-578997पी), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार सुरेन्द्रा सिंह नेगी (जेसी-841281एक्स), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार पी राजु (जेसी-841282ए), 01 जुलाई 2009

नायब सूबेदार कुन्दन सिंह भन्डारी (जेसी-841295एक्स), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार चन्दर पाल (जेसी-199232एन), 01 अगस्त 2009

स्थायी सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) जितेन्द्रा नाथ सिंह (जेसी-841869वाई), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) मिलाप चन्द राना (जेसी-841871डब्ल्यू), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) हरनाम सिंह (जेसी-841886वाई), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार (लिपिक) भनवर सिंह (जेसी-841888के), 01 अगस्त 2009

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार गोविन्द सिंह (सं. 10302027एम अब जेसी-842609ए), 23 अगस्त 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009)

हवलदार रवीन्द्रन सी के (सं. 10327740पी अब जेसी-842617वाई), 05 अगस्त 2009 \*\*

हवलदार राज कुमार (सं. 13735558ए अब जेसी-842621एफ), 01 अगस्त 2009 \*\*

हवलदार दर्शन पाल सिंह (सं. 10404324एन अब जेसी-842624पी), 18 अगस्त 2009 \*\*

हवलदार रजिन्दर सिंह (सं. 3975690पी अब जेसी-842625एक्स), 14 अगस्त 2009 \*\*

हवलदार प्रकाश (सं. 10478800डब्ल्यू अब जेसी-842626ए),  
07 अगस्त 2009\*\*

हवलदार सिध गणेश अशोक अम्बादास (सं. 10118622डब्ल्यू अब जेसी-842627एच), 05 सितम्बर 2009\*\*

हवलदार हुकम चन्द (सं. 10134190डब्ल्यू अब जेसी-842628एल),  
06 अगस्त 2009\*\*

हवलदार महिपाल सिंह (सं. 1260434के अब जेसी-842631एल),  
03 अगस्त 2009\*\*

\*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009)

हवलदार मोहिन्द्र सिंह (सं. 10134389एक्स अब जेसी-842634वाई),  
01 सितम्बर 2009\*\*\*

हवलदार बरुण मुखिया (सं. 13609314ए अब जेसी-842635एफ),  
01 सितम्बर 2009\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009)

हवलदार हनुमान सिंह चौहान (सं. 2973765एम अब जेसी-842638पी),  
01 सितम्बर 2009\*\*\*

हवलदार शिवजी तिवारी (सं. 8026637वाई अब जेसी-842639एक्स),  
01 सितम्बर 2009\*\*\*

हवलदार अमर सिंह (सं. 13736325एल अब जेसी-842640एम),  
01 सितम्बर 2009\*\*\*

हवलदार पर्मा नन्द (सं. 2670841के अब जेसी-842641पी),  
01 सितम्बर 2009\*\*\*

हवलदार शशिधरन नायर एस (सं. 10289256डब्ल्यू अब जेसी-842644एच), 01 सितम्बर 2009\*\*\*

हवलदार सुवाश तिवारी (सं. 6462842एम अब जेसी-842646एन),  
01 सितम्बर 2009\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009)

हवलदार शिन्दे साहेब राव मणिक राव (सं. 1544353वाई अब जेसी-842647डब्ल्यू), 24 सितम्बर 2009\*\*\*

\*\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 सितम्बर 2009)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) इकबाल अहमद मेनुद्दीन तपल (सं. 2761579ए अब जेसी-842531ए), 05 अगस्त 2009\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* [नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009]

हवलदार (लिपिक) राधा मोहन शर्मा (सं. 14912274के अब जेसी-842612ए), 01 अगस्त 2009\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* [नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009]

हवलदार (लिपिक) शमशेर सिंह (सं. 10197953डब्ल्यू अब जेसी-842633डब्ल्यू), 19 सितम्बर 2009\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* [नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009]

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार रमेश के (सं. 10290512एम अब जेसी-842547एल),  
01 जून 2009\*

हवलदार सिंहप्पा जिनराली (सं. 14311212ए अब जेसी-842562ए),  
01 जून 2009\*

हवलदार गुरदिप सिंह (सं. 3369627एम अब जेसी-842574पी),  
08 जून 2009\*

हवलदार रणवीर सिंह (सं. 14452145के अब जेसी-842583डब्ल्यू),  
01 जून 2009\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009)

हवलदार माशी दास ऐन्ड (सं. 4254837डब्ल्यू अब जेसी-842589एक्स), 01 जुलाई 2009\*\*

हवलदार एम देवराज (सं. 10165422एल अब जेसी-842593ए),  
01 जुलाई 2009\*\*

हवलदार लोकरे राम रतन (सं. 10118693एक्स अब जेसी-842594एच), 01 जुलाई 2009\*\*

हवलदार जगदिश (सं. 10134147पी अब जेसी-842599एफ),  
01 जुलाई 2009\*\*

हवलदार श्याम प्रकाश (सं. 10404293वाई अब जेसी-842600एल),  
17 जुलाई 2009\*\*

हवलदार होशियार सिंह नेगी (सं. 4052102के अब जेसी-842601एन),  
15 जुलाई 2009\*\*

हवलदार शाहु लोन्हे (सं. 10118418एक्स अब जेसी-842604एफ),  
20 जुलाई 2009\*\*

हवलदार मोहम्मद रजाक अली (सं. 10243615ए अब जेसी-842605के), 17 जुलाई 2009\*\*

हवलदार रमेश सिंह (सं. 10436162एफ अब जेसी-842610पी),  
21 जुलाई 2009\*\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) अनिल कुमार (सं. 4253363एन अब जेसी-842613एच), 01 अगस्त 2009\*\*\*

हवलदार(लिपिक) दिलीप सिंह रौतेला (सं. 4057945एफ अब जेसी-842615एन), 01 अगस्त 2009\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार/लिपिक के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009)

प्रदीप कुमार  
अवर सचिव

#### थल सेना विभाग

सं. 204, दिनांक 6 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना  
कोर ऑफ सिगनल्स

सूबेदार मेजर (वाई ऑफ एस) के रैंक में

सूबेदार बालाप्प पाटिल (जेसी-368978एम), 11 दिसम्बर 2008

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार सी के मूर्ति (जेसी-369250एल), 01 जनवरी 2009

सूबेदार हरदेव सिंह (जेसी-368983एक्स), 01 मार्च 2009

सूबेदार हरि पाल सिंह (जेसी-369238के), 06 मार्च 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार रोशन लाल (जेसी-369533एम), 01 मार्च 2009

सूबेदार सनी जोसेफ के (जेसी-369249डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार तंकधरा साहू (जेसी-369540एच), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार हंसराज शर्मा (जेसी-369543डब्ल्यू), 01 जुलाई 2009

सूबेदार रवीन्द्र सिंह (जेसी-369549एक्स), 02 सितम्बर 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार केदार सिंह (जेसी-369550एम), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार देवी दत्त (जेसी-369554एच), 16 सितम्बर 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार करण सिंह (जेसी-369555एल), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार मेजर (एफ ऑफ एस) के रैंक में

सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-367123एक्स), 01 फरवरी 2008

सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-367920एच), 01 जुलाई 2008

सूबेदार चंद्र भान (जेसी-367929एक्स), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार सीताराम शर्मा (जेसी-367954डब्ल्यू), 17 नवम्बर 2008

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार दिनेश कुमार (जेसी-367955वाई), 01 दिसम्बर 2008

सूबेदार जय राम ओझा (जेसी-368541वाई), 01 जनवरी 2009

सूबेदार श्रीनिवास सिंह (जेसी-367257डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009

सूबेदार भगवती प्रसाद (जेसी-368545पी), 01 फरवरी 2009

सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-367964ए), 01 फरवरी 2009

सूबेदार भानु प्रताप शिशु (जेसी-367965एच), 01 मार्च 2009

सूबेदार एम पत्तबि (जेसी-367967एन), 20 मई 2009

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-367968डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार एस गुरुनाथन (जेसी-367969वाई), 01 मई 2009

सूबेदार होशियार सिंह रावत (जेसी-368549एल), 01 जून 2009

सूबेदार इन्द्रजीत (जेसी-367972वाई), 01 जून 2009

सूबेदार आर सी चौपड़ा (जेसी-368550ए), 01 जुलाई 2009

सूबेदार किशन लाल गुजर (जेसी-368551एच), 01 अगस्त 2009

सूबेदार राम शरण (जेसी-367976पी), 01 अगस्त 2009

सूबेदार विक्रम सिंह (जेसी-368554डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार मोहन लाल (जेसी-368558एम), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार बी आर बिश्नोई (जेसी-368562पी), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार मेजर (ओ पी शाईफर) के रैंक में

सूबेदार राकेश कुमार शर्मा (जेसी-368955एल), 22 जून 2008

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

सूबेदार बंकु राम दरोच (जेसी-369325एक्स), 01 जून 2008

सूबेदार दिलबाग सिंह दलाल (जेसी-369388ए), 01 सितम्बर 2008

सूबेदार पी जेकब (जेसी-369390एक्स), 01 नवम्बर 2008

सूबेदार हवा सिंह (जेसी-369327एच), 01 जनवरी 2009

सूबेदार रबीन्द्रा कुमार पट्टनायक (जेसी-369914एन), 01 जनवरी 2009

सूबेदार सतबीर सिंह (जेसी-370837डब्ल्यू), 01 मार्च 2009  
 सूबेदार नरेंद्र सिंह नेगी (जेसी-371136एम), 01 मार्च 2009  
 सूबेदार द्वारास्वामी एस (जेसी-371378पी), 01 अप्रैल 2009  
 सूबेदार सुनील कुमार (जेसी-371382एक्स), 04 मई 2009  
 (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जायेगी)  
 सूबेदार के मडा स्वामी (जेसी-371630एच), 01 मई 2009  
 सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-371636के), 01 जून 2009  
 सूबेदार बाबू लाल शर्मा (जेसी-371834पी), 01 जुलाई 2009  
 सूबेदार जे एस टर्न (जेसी-371904एच), 06 जुलाई 2009  
 (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जायेगी)  
 सूबेदार पल्लवन्दर सिंह (जेसी-372067एन), 01 जुलाई 2009  
 सूबेदार वासुदेवन नायर एन (जेसी-371905एल), 01 अगस्त 2009  
 सूबेदार उज्जल कांती समान्ता (जेसी-372234वाई), 01 सितम्बर 2009  
 सूबेदार राम चंद (जेसी-372235एफ), 01 अक्टूबर 2009  
 सूबेदार बालाकृष्णन नायर के आर (जेसी-372263एन), 01 अक्टूबर 2009  
 सूबेदार सुरम सिंह (जेसी-372265वाई), 01 अक्टूबर 2009  
 सूबेदार मेजर (ओ एस एस) के रैंक में  
 सूबेदार शशी कांत सिंह (जेसी-368669के), 01 फरवरी 2008  
 सूबेदार जगन सिंह (जेसी-369920एफ), 01 दिसम्बर 2008  
 सूबेदार श्रीकांत गौतम (जेसी-370258के), 01 जनवरी 2009  
 सूबेदार लोतन चंद्रा उपाध्याय (जेसी-370263पी), 01 फरवरी 2009  
 सूबेदार सर्वजीत सिंह (जेसी-370264एक्स), 27 फरवरी 2009  
 (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जायेगी)  
 सूबेदार योगेंद्र पाल सिंह (जेसी-370289के), 01 मार्च 2009  
 सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-368885एक्स), 01 मार्च 2009  
 सूबेदार पीयर चंद (जेसी-370845पी), 01 अप्रैल 2009  
 सूबेदार हरमेश सिंह (जेसी-371385एल), 01 मई 2009  
 सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-371519वाई), 01 मई 2009  
 सूबेदार शंभु दयाल जाट (जेसी-371520एन), 01 जुलाई 2009  
 सूबेदार श्याम लाल (जेसी-368939एन), 22 सितम्बर 2009  
 (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)

सूबेदार विष्णु पाल सिंह (जेसी-371641पी), 01 सितम्बर 2009  
 सूबेदार शीशपाल सिंह नेगी (जेसी-371642एक्स), 01 सितम्बर 2009  
 सूबेदार मेजर (क्लर्क जी डी) के रैंक में  
 सूबेदार दामोदर सिंघा (जेसी-370084पी), 03 मार्च 2009  
 (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)  
 सूबेदार दलेल सिंह (जेसी-370091एल), 05 मार्च 2009  
 (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जायेगी)  
 सूबेदार उम्मेद सिंह (जेसी-370092एन), 01 मार्च 2009  
 सूबेदार सुब्रामण्यम पी (जेसी-372449एक्स), 01 मार्च 2009  
 सूबेदार जयराम चौहान (जेसी-370351एल), 01 जुलाई 2009  
 सूबेदार महावीर प्रसाद यादव (जेसी-370348एल), 01 जुलाई 2009  
 सूबेदार अजीत कुमार एम (जेसी-370357एम), 01 अगस्त 2009  
 सूबेदार श्री कृष्ण निशाल (जेसी-370388एम), 16 सितम्बर 2009  
 (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जायेगी)  
 सूबेदार मेजर (एस के टी) के रैंक में  
 सूबेदार बिस्वा प्रकाश साहू (जेसी-370669एच), 01 जून 2008  
 सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-371524के), 01 मार्च 2009  
 सूबेदार जागिंदर पॉल (जेसी-371526पी), 01 जुलाई 2009  
 सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में  
 सूबेदार एम राव पेडाडा (जेसी-371033एन), 01 मार्च 2008  
 सूबेदार दान सिंह (जेसी-371037के), 01 अप्रैल 2008  
 सूबेदार पिअर लाल (जेसी-371042पी), 01 अप्रैल 2008  
 सूबेदार हरिदास सिंह (जेसी-371044ए), 11 अप्रैल 2008  
 (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)  
 सूबेदार सुरिन्दर कुमार (जेसी-371066वाई), 01 अप्रैल 2008  
 सूबेदार चंद्र मोहन झा (जेसी-371068के), 01 अप्रैल 2008  
 सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-371071के), 01 अप्रैल 2008  
 सूबेदार चमन लाल (जेसी-371075ए), 16 अप्रैल 2008  
 (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)  
 सूबेदार राजा शेखर कुरुप जी (जेसी-371076एच), 11 अप्रैल 2008  
 (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

- सूबेदार सेल्वारज डी (जेसी-371104के), 01 अप्रैल 2008
- सूबेदार लक्ष्मी नारायण झा (जेसी-371108ए), 05 अप्रैल 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार अब्राहम पी वी (जेसी-371116वाई), 03 मई 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार पृथ्वी चंद शर्मा (जेसी-371123पी), 14 जून 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार नारायण राम (जेसी-371126एच), 18 जुलाई 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार शम सिंह राणा (जेसी-371128एन), 01 मई 2008
- सूबेदार राज कुमार (जेसी-371133वाई), 01 मई 2008
- सूबेदार राम पाल शर्मा (जेसी-371134एफ), 01 मई 2008
- सूबेदार हरभजन लाल (जेसी-371192एल), 01 जून 2008
- सूबेदार मुकुंद लाल शर्मा (जेसी-371197के), 05 जून 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार सुभाष चावला (जेसी-371202के), 04 जून 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार उगमा राम (जेसी-371203एम), 20 दिसम्बर 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार बालाकृष्ण शर्मा (जेसी-371204पी), 01 जुलाई 2008
- सूबेदार शिव करण सिंह (जेसी-371205एक्स), 16 जुलाई 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार सबू वी वी (जेसी-371207एच), 21 जुलाई 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार राज सिंह (जेसी-371210एच), 12 अगस्त 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार कृपाल सिंह मेहता (जेसी-371211एल), 09 अगस्त 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार कुलवंत सिंह (जेसी-371214वाई), 16 सितम्बर 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार धरम पाल (जेसी-371215एफ), 13 अगस्त 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार ओम प्रकाश (जेसी-371241एच), 18 सितम्बर 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार सुजान सिंह (जेसी-371297पी), 10 सितम्बर 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार हरजिंदर सिंह (जेसी-371298एक्स), 01 अक्टूबर 2008
- सूबेदार सरदारी लाल (जेसी-371302पी), 01 अक्टूबर 2008
- सूबेदार विजयन पिल्लई के सी (जेसी-371304ए), 01 अक्टूबर 2008
- सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-371309वाई), 01 अक्टूबर 2008
- सूबेदार रवीन्द्र सिंह (जेसी-371312वाई), 03 अक्टूबर 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार दलजीत रे (जेसी-371313एफ), 01 अक्टूबर 2008
- सूबेदार वाखरे रामदास जेनू (जेसी-371316पी), 06 अक्टूबर 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार जे एस जामावाल (जेसी-371318ए), 17 दिसम्बर 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार अश्वनी कुमार शर्मा (जेसी-371320एक्स), 01 दिसम्बर 2008
- सूबेदार शामी मुहम्मद (जेसी-371322एच), 13 दिसम्बर 2008  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-371331के), 30 जनवरी 2009  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जायेगी)
- सूबेदार सुशील कुमार शर्मा (जेसी-371334एक्स), 01 दिसम्बर 2008



सूबेदार रोमेश चंद (जेसी-371335ए), 01 जनवरी 2009

सूबेदार सुरिंदर कुमार (जेसी-371439एफ), 26 जनवरी 2009  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार राजिंदर नाथ (जेसी-371457के), 31 जनवरी 2009  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार शाहजुद्दीन शेख (जेसी-371012एक्स), 02 जनवरी 2009

सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-371038एम), 02 जनवरी 2009

सूबेदार गोविंद सिंह (जेसी-371122एम), 01 मार्च 2009

सूबेदार गोविंद सिंह (जेसी-371127एल), 06 मार्च 2009  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार ब्रह्म सिंह (जेसी-371190ए), 01 मार्च 2009

सूबेदार अरविन्द कुमार (जेसी-371299ए), 01 मार्च 2009

सूबेदार नित्यानंदा घोष (जेसी-371440डब्ल्यू), 04 मार्च 2009  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार शम्भू नाथ सिंह (जेसी-371470एन), 05 अप्रैल 2009  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार जयराम सिंह (जेसी-371474के), 03 अप्रैल 2009  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार राजीवन एम (जेसी-371475एम), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार ध्रुवा प्रसाद (जेसी-371499डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार मोहना कुमार बी (जेसी-371535डब्ल्यू), 06 अप्रैल 2009  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार राम नारायण (जेसी-371561एक्स), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार एस सी शर्मा (जेसी-371562ए), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-371583डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार एस लंगामन्ना पाटिल (जेसी-371591पी), 08 अप्रैल 2009  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार के सी घोष (जेसी-371610पी), 01 अप्रैल 2009

सूबेदार शाम लाल मोटन (जेसी-371615एन), 01 मई 2009

सूबेदार अयाज वारिश खान (जेसी-371616डब्ल्यू), 01 जून 2009

सूबेदार सुन्नी जॉन (जेसी-371660ए), 01 जून 2009

सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-371665वाई), 01 जून 2009

सूबेदार सुरेन्द्रन पिल्लई एन (जेसी-371666एफ), 01 जुलाई 2009

सूबेदार राम निवास (जेसी-371708एच), 01 जुलाई 2009

सूबेदार सबीर अली (जेसी-371711एच), 01 जुलाई 2009

सूबेदार कामेश्वर चौधरी (जेसी-371726एल), 01 जुलाई 2009

सूबेदार कृष्णा देव मिश्रा (जेसी-371759डब्ल्यू), 01 जुलाई 2009

सूबेदार नरेश पाल (जेसी-371606एम), 01 अगस्त 2009

सूबेदार जीत सिंह (जेसी-371764एफ), 03 अगस्त 2009  
(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाएगी)

सूबेदार बलवान सिंह बजर (जेसी-371770पी), 01 अगस्त 2009

सूबेदार सुभाष यादव (जेसी-371771एक्स), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार रवि पाल (जेसी-371800एफ), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार मुल्ला हुसैन बशा (जेसी-371802एम), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार अनवर बेग (जेसी-371806एच), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार विजयन ए (जेसी-371826डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-371843डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2009

सूबेदार बिरेन्द्र सिंह (जेसी-371867ए), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार जेकब वाई (जेसी-371868एच), 01 अक्टूबर 2009

सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-371873एन), 01 अक्टूबर 2009

ए वी बागुर  
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एम जी ओ) ई एम ई कार्मिक

सं. 205, दिनांक 6 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

सूबेदार आरमोर के रैंक में

नायब सूबेदार विरेन्द्र कुमार पाण्डे (जेसी-760202एक्स), 13 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

सूबेदार आरटीजन (ए वी एन) के रैंक में

नायब सूबेदार आजाद अहमद (जेसी-761723एक्स), 14 जून 2009/01 जून 2009\*

नायब सूबेदार मुनिम खान (जेसी-761815के), 16 जून 2009/01 जून 2009\*

## सूबेदार आरटीजन (ई सी) के रैंक में

- नायब सूबेदार दुर्गा नारायण (जेसी-760697पी), 01 मई 2009/01 जनवरी 2009\*
- नायब सूबेदार रितु भन्जन सिंह (जेसी-760880एक्स), 05 मई 2009/01 मार्च 2009\*
- नायब सूबेदार कोरे दिलीप नबू (जेसी-760881ए), 01 मार्च 2009
- नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-760746एम), 01 फरवरी 2009
- नायब सूबेदार सेल्वन टी (जेसी-760877एक्स), 03 मार्च 2009/01 मार्च 2009\*
- नायब सूबेदार हर दयाल स्वामी (जेसी-761006के), 10 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*
- नायब सूबेदार गोकुला नंद जोशी (जेसी-760750पी), 02 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009\*
- नायब सूबेदार सुन्दर सिंह (जेसी-760876पी), 02 मार्च 2009/01 मार्च 2009\*
- नायब सूबेदार नरपत सिंह चौहान (जेसी-760648एम), 01 जनवरी 2009
- नायब सूबेदार ब्रह्मा चंद सिंह (जेसी-760698एक्स), 17 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009\*
- नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-760706एल), 02 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009\*
- नायब सूबेदार हरीश चंद्र (जेसी-760699ए), 02 फरवरी 2009/01 फरवरी 2009\*
- नायब सूबेदार विजेन्द्र सिंह (जेसी-760879एच), 06 मई 2009/06 मार्च 2009\*
- नायब सूबेदार रामशरण गुर्जर (जेसी-761556एम), 12 जून 2009/01 जून 2009\*
- नायब सूबेदार कश्मीर सिंह चौहान (जेसी-761557पी), 02 जून 2009/01 जून 2009\*
- नायब सूबेदार बन्सीराम मीना (जेसी-760752ए), 29 जनवरी 2009/01 जनवरी 2009\*

## सूबेदार आरटीजन (एन ई) के रैंक में

- नायब सूबेदार हरeram प्रसाद (जेसी-759703एल), 01 मई 2009
- नायब सूबेदार हरी देव सिंह (जेसी-759697एच), 13 मई 2009/01 मई 2009\*
- नायब सूबेदार उपेन्द्र कुमार नायक (जेसी-759795एच), 06 जून 2009/01 जून 2009\*
- नायब सूबेदार प्रमोद कुमार (जेसी-759789पी), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार आशुतोष कुमार राय (जेसी-759788एम), 02 जून 2009/01 जून 2009\*

## सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में

- नायब सूबेदार राजेश लाल वर्मा (जेसी-756693एफ), 01 मई 2009/01 अप्रैल 2009\*
- नायब सूबेदार सदानन्दन वी (जेसी-757030एच), 13 मई 2009/01 अप्रैल 2009\*
- नायब सूबेदार शिवानन्दा वदलार (जेसी-757035एफ), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-757038पी), 01 जून 2009
- नायब सूबेदार बाबूसेन नायर टी (जेसी-757037एम), 03 जून 2009/01 जून 2009
- नायब सूबेदार राजेन्द्र तिवारी (जेसी-757036के), 01 जून 2009

## सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

- नायब सूबेदार मोहम्मद इस्माइल (जेसी-760665एम), 11 मार्च 2009/03 दिसम्बर 2008\*
- नायब सूबेदार पुष्पा करन वी सी (जेसी-760851एच), 23 मई 2009/01 दिसम्बर 2008\*
- नायब सूबेदार शिव कुमार सिंह (जेसी-761384एच), 12 जून 2009/01 जून 2009\*
- नायब सूबेदार हरे राम चौबे (जेसी-760944एक्स), 13 जून 2009/03 दिसम्बर 2008\*
- नायब सूबेदार उदय कुमार सिंह (जेसी-761023के), 13 जून 2009/01 दिसम्बर 2008\*
- नायब सूबेदार निन्दा कुमार ब्रह्मा (जेसी-761459पी), 13 जून 2009/01 दिसम्बर 2008\*
- नायब सूबेदार भरत सिंह (जेसी-761460के), 11 जून 2009/01 जून 2009\*
- नायब सूबेदार चन्द्र मोहन सिंह (जेसी-761794वाई), 08 जून 2009/01 जून 2009\*
- नायब सूबेदार मनमाधन टी (जेसी-761466एल), 05 जून 2009/01 जून 2009\*
- नायब सूबेदार हरी चंद (जेसी-761625एक्स), 09 जून 2009/01 जून 2009\*

## सूबेदार रिकवरी मेक के रैंक में

- नायब सूबेदार अजय थापा (जेसी-754305ए), 15 मई 2009/01 अप्रैल 2009\*
- नायब सूबेदार कमल रंजन होने राय (जेसी-754306एच), 18 मई 2009/01 मई 2009\*

## सूबेदार एस के टी के रैंक में

- नायब सूबेदार अवधेश कुमार यादव (जेसी-757323एन), 16 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार हर्षवर्धन पन्त (जेसी-757363पी), 18 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार अजित रंजन दास गुप्ता (जेसी-758406एल), 02 जून 2009/01 जून 2009\*

सूबेदार टेक के रैंक में

नायब सूबेदार ललन कुमार सिंह (जेसी-758700एल), 01 जून 2009

नायब सूबेदार कुतुबुद्दीन मोल्लाह (जेसी-758696एन), 02 जून 2009/01 जून 2009\*

नायब सूबेदार सुरेश सिंह (जेसी-758537डब्ल्यू), 19 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार राम नारायण (जेसी-758869ए), 05 मई 2009/01 मई 2009\*

नायब सूबेदार उमेद सिंह (जेसी-758342एल), 02 मई 2009/01 मई 2009\*

नायब सूबेदार प्रेम प्रकाश (जेसी-758507वाई), 04 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार भूप सिंह (जेसी-758341एच), 01 मई 2009

नायब सूबेदार बेद प्रकाश विश्वकर्मा (जेसी-758470एच), 01 मई 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार लक्ष्मी कांत (जेसी-758591के), 07 मई 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार ओम प्रकाश सिंह (जेसी-758510वाई), 29 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार स्वामी दीन (जेसी-758531पी), 27 अप्रैल 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार ललित कुमार (जेसी-758473डब्ल्यू), 06 मई 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार केदार भिकाचन सखाराम (जेसी-758471एल), 04 मई 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार अजित सिंह (जेसी-758475एफ), 01 मई 2009

नायब सूबेदार विनोदधन जी (जेसी-759561वाई), 06 मई 2009/01 मई 2009\*

नायब सूबेदार पुष्पिन्दर कुमार (जेसी-758472एन), 09 मई 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार शिव कुमार प्रसाद तिवारी (जेसी-758780एन), 08 मई 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार लाल मनि शुक्ला (जेसी-758856एच), 01 मई 2009

नायब सूबेदार अहिबनर सिंह (जेसी-758474वाई), 01 मई 2009

नायब सूबेदार ऋषिकेश दूबे (जेसी-758459के), 18 मई 2009/01 अप्रैल 2009\*

नायब सूबेदार कृष्ण कमल घोष (जेसी-758467एच), 02 मई 2009/01 मई 2009\*

नायब सूबेदार ससी कुमार पी (जेसी-758356एल), 04 जून 2009/01 जून 2009\*

नायब सूबेदार जय कृष्ण राय (जेसी-758697डब्ल्यू), 12 जून 2009/01 जून 2009\*

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार (जेसी-761579एन), 12 जून 2009/01 जून 2009\*

नायब सूबेदार राकेश कुमार शर्मा (जेसी-758357एन), 08 जून 2009/01 जून 2009\*

नायब सूबेदार शिशु पाल सिंह यादव (जेसी-758692एक्स), 02 जून 2009/01 जून 2009\*

नायब सूबेदार शिव प्रसाद यादव (जेसी-758955एल), 01 जून 2009

नायब सूबेदार सिकन्दर सिंह (जेसी-758458एफ), 01 जून 2009

नायब सूबेदार विश्वनाथ मैटी (जेसी-758694एच), 02 जून 2009/01 जून 2009\*

नायब सूबेदार ए राजेन्द्रन (जेसी-758873एच), 01 जून 2009

नायब सूबेदार राम परताप (जेसी-758695एल), 04 जून 2009/01 जून 2009\*

नायब सूबेदार कुशल किशोर श्रीवात्सव (जेसी-758455एन), 01 जून 2009

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-758355एच), 01 जून 2009

नायब सूबेदार चंद्र किशोर झा (जेसी-758871एक्स), 01 जून 2009

नायब सूबेदार कैलाश चंद्र (जेसी-758349पी), 03 जून 2009/01 जून 2009\*

नायब सूबेदार यशवन्त देशमुख (जेसी-758578ए), 01 जून 2009

नायब सूबेदार फोरन सिंह (जेसी-758690एम), 04 जून 2009/01 जून 2009\*

नायब सूबेदार विष्णु भट्टाचार्य (जेसी-758353एक्स), 02 जून 2009/01 जून 2009\*

नायब सूबेदार तेज सिंह रनावत (जेसी-758691पी), 01 जून 2009

नायब सूबेदार कलिवरपू साईराम (जेसी-758456डब्ल्यू), 05 जून 2009/01 जून 2009\*

नायब सूबेदार कृष्ण कुमार ठाकुर (जेसी-758457वाई), 01 जून 2009

नायब सूबेदार भूपाल सिंह (जेसी-758352पी), 01 जून 2009

नायब सूबेदार विद्यापती पाण्डे (जेसी-758351एम), 04 जून 2009/01 जून 2009\*

नायब सूबेदार पवन कुमार (जेसी-758782वाई), 01 जून 2009

सूबेदार टेक ए वी एन के रैंक में

नायब सूबेदार धरमवीर (जेसी-758234एफ), 05 मई 2009/01 मई 2009\*

नायब सूबेदार बलवान सिंह (जेसी-757959पी), 05 मई 2009/  
01 मई 2009 \*

नायब सूबेदार धरम पाल (जेसी-758227एल), 02 मई 2009/01 मई  
2009 \*

नायब सूबेदार मेहर चंद (जेसी-758233वाई), 11 मई 2009/01 मई  
2009 \*

नायब सूबेदार सत्य नारायण शर्मा (जेसी-757861एफ), 14 मई  
2009/01 मई 2009 \*

नायब सूबेदार हेम राज (जेसी-758238एक्स), 06 मई 2009/01 मई  
2009 \*

नायब सूबेदार राम अस्त्रय शर्मा (जेसी-757859के), 01 मई 2009

नायब सूबेदार मनमन्त कुमार साहू (जेसी-758237पी), 14 मई  
2009/01 मई 2009 \*

नायब सूबेदार जी एस संपत (जेसी-757862के), 11 जून 2009/  
01 मई 2009 \*

नायब सूबेदार आलम सिंह (जेसी-757935एल), 16 जून 2009/  
01 मई 2009 \*

नायब सूबेदार उमेश कुमार (जेसी-757848एक्स), 08 जून 2009/  
19 अक्टूबर 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार आटो टेक (ए व्हीकल) के रैंक में

राज सिंह (सं. 14564219पी अब जेसी-764038एक्स), 01 जुलाई  
2009

हवलदार से नायब सूबेदार आटो टेक (बी व्हीकल) के रैंक में

जसविन्दर कुमार (सं. 14560281के अब जेसी-764039ए),  
30 जून 2009/07 जून 2009 \*

भद्र कान्ता बोरह (सं. 14560406डब्ल्यू अब जेसी-764040पी),  
30 जून 2009/07 जून 2009 \*

जय मंगल सिंह (सं. 14560612ए अब जेसी-764041एक्स),  
23 जून 2009/07 जून 2009 \*

रामेश्वर प्रसाद (सं. 14560616डब्ल्यू अब जेसी-764042ए),  
29 जून 2009/07 जून 2009 \*

बीरबल राय (सं. 14560617वाई अब जेसी-764043एच),  
01 जुलाई 2009

सुरेश सिंह (सं. 14560622के अब जेसी-764044एल), 01 जुलाई  
2009

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

रती राम (सं. 14578218एक्स अब जेसी-763997एफ), 21 जुलाई  
2009/01 जुलाई 2009 \*

सुहास हवल (सं. 14585835एच अब जेसी-764120एम), 01 अगस्त  
2009

रामाकृष्ण कुनियिल (सं. 14579995एम अब जेसी-764124एच),  
01 अगस्त 2009

आदेश कुमार (सं. 14584150एक्स अब जेसी-764128वाई),  
01 अगस्त 2009

हवलदार से नायब सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

अशोक कुमार (सं. 14582690एक्स अब जेसी-764003एफ),  
01 जुलाई 2009

जी बी जगदीश्वर राव (सं. 14582170एम अब जेसी-764005एम),  
01 जुलाई 2009

सन्तराम मारुति थम्के (सं. 08030506एल अब जेसी-764046डब्ल्यू),  
29 जून 2009/31 मई 2009 \*

राकेश कुमार श्रीवास्तव (सं. 14582145एन अब जेसी-764047वाई),  
01 जुलाई 2009/07 जून 2009 \*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (बी व्हीकल) के रैंक में

कृपा शरण सिंह (सं. 14622474पी अब जेसी-764085पी),  
08 जुलाई 2009/07 जून 2009 \*

महिला राजा राव (सं. 14620030एम अब जेसी-763943ए),  
22 जुलाई 2009/01 जून 2009 \*

प्रकाश एल के (सं. 14620035एल अब जेसी-763944एच),  
21 जुलाई 2009/01 जून 2009 \*

भरत सिंह (सं. 14619243एन अब जेसी-764076एन), 06 जुलाई  
2009/01 जून 2009 \*

रविन्दर कुमार (सं. 14619992के अब जेसी-764077डब्ल्यू),  
02 जुलाई 2009/01 जून 2009 \*

मनोरंजन कुमार सिंह (सं. 14620843एच अब जेसी-764078वाई),  
30 जून 2009/01 जून 2009 \*

बृज भूषण सिंह (सं. 14621050एम अब जेसी-764079एफ),  
01 जुलाई 2009/01 जून 2009 \*

जी वैरमुथू (सं. 14621556एल अब जेसी-764080डब्ल्यू),  
07 जुलाई 2009/01 जून 2009 \*

दिलीप पी. एस (सं. 14622341वाई अब जेसी-764081वाई),  
01 जुलाई 2009/01 जून 2009 \*

कमलेश मिश्रा (सं. 14622654एक्स अब जेसी-764082एफ),  
02 जुलाई 2009/01 जून 2009 \*

जयदीप महाकुर (सं. 14622495एल अब जेसी-764084एम),  
06 जुलाई 2009/07 जून 2009 \*

राकेश कुमार झा (सं. 14622807डब्ल्यू अब जेसी-764088एच),  
17 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009 \*

बिन्नु वी (सं. 14623173एक्स अब जेसी-764089एल), 01 जुलाई  
2009

आसिम उद्दीन (सं. 14623716वाई अब जेसी-764090ए), 01 जुलाई 2009

अधव पाण्डुरंग अन्कुश (सं. 14624766डब्ल्यू अब जेसी-764091एच), 12 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009\*

पाटिल जसवंत वसन्त (सं. 14624449पी अब जेसी-764092एल), 02 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009\*

रेजीमन के पी (सं. 14624574वाई अब जेसी-764093एन), 01 जुलाई 2009

देदा राम (सं. 14624924ए अब जेसी-764094डब्ल्यू), 01 जुलाई 2009

पी रवी (सं. 14626109एल अब जेसी-764095वाई), 02 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009\*

संतोश बारिक (सं. 14607521के अब जेसी-764096एफ), 11 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009\*

शिवनाथ सिंह (सं. 14610733ए अब जेसी-764097के), 03 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009\*

सुनील कुमार तिवारी (सं. 14619419एन अब जेसी-764098एम), 01 जुलाई 2009

गेले हनुमन्त पोपट (सं. 14619704एम अब जेसी-764099पी), 01 अगस्त 2009

गुड्डू सिंह (सं. 14620047ए अब जेसी-764100वाई), 01 अगस्त 2009

तरसेम सिंह (सं. 14621517एम अब जेसी-764101एफ), 01 अगस्त 2009

राम भजन (सं. 14621268वाई अब जेसी-763947डब्ल्यू), 08 जुलाई 2009/01 जुलाई 2009\*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक (कम्यूनिकेशन) के रैंक में

अनिल कुमार तिवारी (सं. 14617560डब्ल्यू अब जेसी-764048एफ), 29 जून 2009/01 जून 2009\*

चवन जयवन्त बाबू राव (सं. 14617568एच अब जेसी-764049के), 06 जुलाई 2009/01 जून 2009\*

हिर्वे उपकार भीम राव (सं. 14617599एच अब जेसी-764050वाई), 01 जुलाई 2009/01 जून 2009\*

भनवर सिंह (सं. 14617753डब्ल्यू अब जेसी-764052के), 01 जुलाई 2009/01 जून 2009\*

गणेश दत्त दुमका (सं. 14617905एम अब जेसी-764053एम), 01 जुलाई 2009/01 जून 2009\*

परसुराम साहू (सं. 14617914एन अब जेसी-764054पी), 04 जुलाई 2009/01 जून 2009\*

संजय कुमार (सं. 14617927एल अब जेसी-764056ए), 01 जुलाई 2009/01 जून 2009\*

बिजू जोसेफ (सं. 14618182पी अब जेसी-764057एच), 01 जुलाई 2009/01 जून 2009\*

के दुरई राजू (सं. 14618351एल अब जेसी-764058एल), 01 जुलाई 2009/01 जून 2009\*

अशोक कुमार तिवारी (सं. 14618508ए अब जेसी-764059एन), 01 जुलाई 2009/01 जून 2009\*

सुरेन्द्र सिंह महिला राजा राव (सं. 14618536एम अब जेसी-764060एच), 04 अगस्त 2009/01 जून 2009\*

शैक खाजा वली (सं. 14618655एच अब जेसी-764063डब्ल्यू), 29 जून 2009/01 जून 2009\*

कान्दू श्रीनिवासा राव (सं. 14618704ए अब जेसी-764065एफ), 30 जून 2009/01 जून 2009\*

सुरेन्द्र सिंह रावत (सं. 14618908एम अब जेसी-764066के), 16 जुलाई 2009/01 जून 2009\*

भोसले गणपतराव तुकाराम (सं. 14619748के अब जेसी-764067एम), 30 जून 2009/01 जून 2009\*

अजय चौधरी (सं. 14617587एन अब जेसी-764068पी), 01 जून 2009

उदय प्रताप सिंह (सं. 14618057एल अब जेसी-764069एक्स), 27 जून 2009/01 जून 2009\*

सुनील दत्त (सं. 14618471के अब जेसी-764070एम), 27 जून 2009/01 जून 2009\*

सुरेश जी एस (सं. 14618749ए अब जेसी-764072एक्स), 08 जुलाई 2009/01 जून 2009\*

पी राजीव (सं. 14618880एक्स अब जेसी-764074एच), 11 जुलाई 2009/01 जून 2009\*

टी कुन्जु मन (सं. 14620455एल अब जेसी-764075एल), 30 जून 2009/01 जून 2009\*

कन्वर पाल (सं. 14618667एक्स अब जेसी-764074वाई), 25 जून 2009/01 जून 2009\*

रामा दास सी वी (सं. 14618646एफ अब जेसी-764062एन), 09 जुलाई 2009/01 जून 2009\*

बी राजा (सं. 14618918डब्ल्यू अब जेसी-764073ए), 02 जुलाई 2009/01 जून 2009\*

हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

अनिल कुमार कर (सं. 1464784एक्स अब जेसी-763990एक्स), 05 जुलाई 2009

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (एस ए) के रैंक में

राजेन्द्र कुमार (सं. 14563805एल अब जेसी-764045एन), 01 जुलाई 2009/07 जून 2009\*

हवलदार से नायब सूबेदार वैलडर के रैंक में

गोविन्दराजू एम (सं. 14565660के अब जेसी-764018के), 01 जुलाई 2009

\*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

एन के कश्मीरा  
अपर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 206, तारीख 6 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:--

नियमित सेना  
क्वचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार कुलदीप सिंह (सं. 1099226एफ अब जेसी-243512के),  
11 सितम्बर 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2009 से दी जाती है)

दफादार कैलाश चन्द यादव (सं. 1089212एन अब जेसी-243626पी),  
01 जून 2009

दफादार शिव सिंह (सं. 15461243एफ अब जेसी-243642एम), 27  
जून 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

दफादार राज कुमार सिंह (सं. 1088273वाई अब जेसी-243643पी),  
23 जून 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

दफादार समन्द्र सिंह (सं. 15463269पी अब जेसी-243644एक्स),  
23 जून 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2009 से दी जाती है)

दफादार विजेन्द्र सिंह (सं. 1089996ए अब जेसी-243649डब्ल्यू)  
02 जुलाई 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

दफादार श्री दिनेश सिंह नरोलिया (सं. 1081923वाई अब जेसी-243647एल), 15 जून 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जून 2009 से दी जाती है)

दफादार अर्जुन सिंह (सं. 1089160एच अब जेसी-243708एक्स),  
31 जुलाई 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाती है)

दफादार बालाविनायगम पी (सं. 1089124एक्स अब जेसी-243710पी),  
31 जुलाई 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2009 से दी जाती है)

दफादार राजपाल सिंह (सं. 1089126एच अब जेसी-243711एक्स),  
31 जुलाई 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

दफादार प्रेम नारायण (सं. 1088011एच अब जेसी-243719के),  
15 अगस्त 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

दफादार करन सिंह (सं. 1098968पी अब जेसी-243754एम),  
03 सितम्बर 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

दफादार राम प्रकाश सिंह चौहान (सं. 1098976एन अब जेसी-243755पी), 28 अगस्त 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

दफादार अजितेश पात्रा (सं. 1099035एम अब जेसी-243778डब्ल्यू),  
02 सितम्बर 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार हरीष चन्द्र (सं. 1099147एम अब जेसी-243777एन),  
15 सितम्बर 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार समासो कुमार अनसारी (सं. 15461527एल अब जेसी-243779वाई), 15 सितम्बर 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार चौधरी सुभाष दगडू (सं. 1088316एच अब जेसी-243763एन), 03 सितम्बर 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2009 से दी जाती है)

दफादार सुरेन्द्र सिंह (सं. 1088248ए अब जेसी-243767के),  
07 सितम्बर 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

दफादार सुभाष कुन्डु (सं. 1089207एच अब जेसी-243769पी),  
07 सितम्बर 2009\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

जे राय चौधरी  
अवर सचिव

#### थल सेना विभाग

सं. 207, दिनांक 7 अप्रैल 2010--निम्नांकित कार्यालय अधीक्षकों को उनके सामने अंकित तिथि से सिविलियन राजपत्रित अधिकारी (सहायक अभिलेख अधिकारी, श्रेणी व राजपत्रित) वेतनमान रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,600/-के रूप में सेना के अभिलेख कार्यालय से नियुक्ति की जाती है :--

पर्सनल नं., नाम, अभिलेख कार्यालय, से प्रभावी

5523054 श्रीमती बिट्टोर स्वेर, आसाम, 01 जनवरी 2009

5923004 आर एस मिश्रा, 39 जी आर, 01 जनवरी 2009

4624804 पी एम पुरुषोत्तमन, मद्रास, 01 जनवरी 2009

4456632 सोहन सिंह, आर्मड, 03 जनवरी 2009

3410864 दीग विजय कुमार, बिहार, 07 फरवरी 2009

5323011 वाई पी शर्मा, सिक्ख, 01 जुलाई 2009

3410865 मोहम्मद अबदुल्ला, आर्टी, 13 जुलाई 2009

संजय सिन्हा  
निदेशक (सीपी) (पी)  
एम पी-4 (सिव)

#### वायु शाखा

सं. 208, दिनांक 7 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

उड़ान शाखा

एयर मार्शल के मूल रैंक में

एल के मल्होत्रा (13373) उ. (पा.), 01 अक्टूबर 2009

ए के सिंह  
उप निदेशक कार्मिक अधिकारी 2(बी)

#### वायु सेना शाखा

सं. 209, दिनांक 7 अप्रैल 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दी गयी तिथि से प्रसन्नतापूर्वक निम्नलिखित पद पर पदोन्नति करते हैं :--

#### सी जी ओ (ई)

श्री एस पी अली (28619), 01 सितम्बर 2009

श्री ए एस कदम (28706), 01 सितम्बर 2009

श्री आर आर घंदत (32052), 01 सितम्बर 2009

श्रीमती एस भालावी (37288), 01 सितम्बर 2009

श्री आर भालावी (37289), 26 अक्टूबर 2009

श्री आर सी मीणा (37336), 01 सितम्बर 2009

श्रीमती आर वी सोनावाने (37326), 30 सितम्बर 2009

श्री कृष्णा महतो (37593), 14 सितम्बर 2009

श्रीमती विनीता श्रीवास्तव (29232), 01 सितम्बर 2009

श्रीमती रीता घोष (29230), 01 सितम्बर 2009

श्री एच सी गुप्ता (29364), 02 सितम्बर 2009

श्रीमती मालती शंकर (29386), 22 अक्टूबर 2009

श्रीमती दयावंती अरोड़ा (29445), 10 सितम्बर 2009

श्रीमती एम के राजू (29484), 01 सितम्बर 2009

श्री एम एस सुभाष (29662), 01 सितम्बर 2009

श्री राजेश्वर कौशल (29701), 01 सितम्बर 2009

श्री ए बी चक्रवर्ती (29841), 19 अक्टूबर 2009

यू ए जोस  
निदेशक पी सी (ए एफ सी)

#### सेना शाखा

सं. 210, दिनांक 7 अप्रैल 2010--

#### शुद्धि-पत्र

ले से कप्तान

भारत के राजपत्र में दिनांक 28 फरवरी 2009 को शीर्षक "नियमित सेना स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "ले से कप्तान" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के बदले : एसएस-41890 रोबिन संगवान, इन्फैन्ट्री

पढ़ा जाए : एसएस-41891 रोबिन संगवान, इन्फैन्ट्री

जसवन्त सिंह  
संयुक्त निदेशक  
एमएस-8सी

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 24th April 2010

## (PERSONAL STAFF)

## APPOINTMENT OF HONORARY SURGEONS

No. 192, dated 30th March 2010—The President is pleased to make the following appointments in her honorary personal staff with effect from 15 Dec 2009 :—

Officer of the Medical Services of the Army

Lt Gen S R Mehta, VSM (MR-02985K), DGMS (Army)

Officer of the Medical Services of the Navy

Surg VADM V K Saxena, AVSM, VSM (MR-02987P), DGMS (Navy)

Specialist Medical Officer

Lt Gen P Bhargava, VSM (MR-03318H), DGHS (AF)

Director General Dental Services (Ex-Officio)

Lt Gen S B Sehajpal, AVSM, VSM (DR-10270H) DGDS

YASH PANDE

Brig

Offg Addl DGAFMS(HR)

## ARMY BRANCH

No. 193, dated 30th March 2010—The President is pleased to make the following appointments :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION (SPECIAL LIST)

The undermentioned JCOs/NCOs are granted Permanent Commission (Special List) in the categories as shown against their names in the rank of Lt under the provisions of AI 85/74 with effect from 24 Jul 09 (FN) as per inter-se-seniority given below. JCOs mentioned in this Gazette having eight years combined service as JCO and the ranks are also granted two years ante-date seniority for pay only under the provisions of Sub Para 7 (c) of AI 85/74 :—

Army No., Rank, Name, SL No., Parent Arm/Service and Category

JC-325848W Sub Maj Siddharth T Ramchandran (SL-05008W), Engrs, AEE EM/IEM

JC-224968N Sub Maj Vimal Raj K (SL-05009Y), Engrs, AEE BR/ASW

JC-207659P Sub Kitab Singh Rang (SL-05010N), Engrs, AEE BR/ASW

JC-325681X Sub Sanjay Tyagi (SL-05011W), Engrs, AEE BR/ASW

JC-370982N Sub Satendra Singh Chauhan (SL-05012Y), Sig, TOsT

JC-330385W Sub Jai Prakash (SL-05013F), Engrs, AEE BR/ASW

JC-439466M Sub Venkateshan A (SL-05014K), Engrs, RO

JC-376490L Nb Sub G Manikandan (SL-05015M), Sig, TOsT

JC-376599L Nb Sub Sudhakar Rao Ananthu (SL-05016P), Sig, TOsT

JC-376785F Nb Sub Mahavir Singh Kaushik (SL-05017X), Sig, RO

JC-450360A Nb Sub Om Prakash Choudhary (SL-05018A), Inf, RO

JC-331135F Nb Sub Suresh Singh Bisht (SL-05019H), Engrs, AEE EM/IEM

JC-762186K Nb Sub Ramandeep Singh (SL-05020X), EME, EMAE

JC-300091N Nb Sub Prakash Kumar K (SL-05021A), AAD, TEO(AAD)

JC-331641M Nb Sub Unnikrishnan S (SL-05023L), Engrs, AEE BR/ASW

9511997W Hav Rati Kanta Mohapatra (SL-05024N), AEC, RO

13753776F Hav Bharat Kumar Rath (SL-05025W), ASC, RO

9512600L Hav Santosh Singh (SL-05026Y), AEC, RO

6383742A Hav Sushil Kumar Pathak (SL-05027F), ASC, RO

15371062P Hav Davender Singh (SL-05028K), Sig, CO

9512635F Hav Nilesh Shrivastava (SL-05029M), AEC, RO

9512644H Hav Harish Singh (SL-05030F), AEC, RO

2786780W Hav Sanjay Girwal (SL-05031K), Inf, RO

15365640H Hav Mohd Firoz Khan (SL-05032M), Sig, RO

4561664L Hav C P Sabu (SL-05033P), Inf, RO

6390951A Hav Vidhyadhar Singh (SL-05034X), ASC, RO

14917575X Hav Sudarshan Kumar Thakur (SL-05035A), Mech, RO

3396079K Hav Tandel Nilesh Bhaskar (SL-05036H), Inf, RO

9099212Y Hav Mazhar Husain Khan (SL-05037L), Inf, RO

9102255F Hav Thirumurugan T (SL-05038N), Inf, RO

14924262F Hav Ishwar Dutt Sharma (SL-05039W), Mech, RO

13996221X Hav Paltu Das (SL-05040L), ASC, RO

6390617Y Hav Ajit Singh (SL-05041N), ASC, RO



6936749W Hav K Ashok Kumar (SL-05042W), AOC, RO  
 4364897N Hav/Clk Charles V (SL-05043Y), Inf, RO  
 4365518Y Hav/Clk Sanjay Singh (SL-05044F), Inf, RO  
 6393652W Hav Hema Chandra Pradhan (SL-05045K), ASC, RO  
 4569499A Hav Sunil Kumar Sheoran (SL-05047P), Inf, RO  
 6393932A Hav Dhanesh E P (SL-05048X), ASC, RO  
 15666881N Hav Sudhiranjan Mohanty (SL-05049A), Sig, RO  
 14628475N HMT Sunil A K (SL-05050P), EME, EMAE  
 6394301K Hav Devender Kumar Rathore (SL-05051X), ASC, RO  
 1589552Y Hav Kilari V V (SL-05052A), Engrs, RO  
 15370491K Hav Dasari Venkateswara Rao (SL-05053H), Sig, RO  
 5454279A Hav Rajesh Kumar Sharma (SL-05054L), Inf, RO  
 15373071P NK Ravinder Pratap Singh (SL-05055N), Sigs, RO  
 3998398M NK Sanjay Kumar (SL-05056W), Int, RO  
 14810597Y NK Mahadeshwara R (SL-05057Y), ASC, RO  
 1497425K NK Sushil Kumar (SL-05058F), Engrs, BSTEO  
 14428221M NK Shailendra Singh Yadav (SL-05059K), Arty, EO

RAHUL SHARMA  
 Lt Col  
 AMS-8B

#### COAST GUARD HEADQUARTERS

No. 194, dated 30th March 2010—The President is pleased to appoint following as Assistant Commandant (GD/Tech) in Coast Guard with effect from the date indicated against each :—

#### GENERAL DUTY/PILOT

Name, Appointment, Date of joining and Personal No.

C Vijay Kumar, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 17 Jan 2008, 0745Q

Rahul Sharma, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 03 Feb 2008, 0746S

Varun Rajput, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 03 Feb 2008, 0747V

Umesh Sharma, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 23 Jun 2008, 0748X

Premjit Sagolsem, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 23 Jun 2008, 0749C

Konark Sharma, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 23 Jun 2008, 0750D

L Lupajao Singh, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 23 Jun 2008, 0751E

Rishabh Kumar Saxena, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 23 Jun 2008, 0752J

Shammi Sharma, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 01 Jul 2008, 0753L

T S Pilkhal, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 02 Jul 2008, 0754M

Bablu Kumar, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 07 Jul 2008, 0755P

Aditya Pratap Singh, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 07 Jul 2008, 0756Q

Sunny Deo, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 07 Jul 2008, 0757S

Pratip Modak, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 21 Dec 2008, 0758V

Shyam Kishore, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 21 Dec 2008, 0759X

Birjit Kumar Singh Thokchom, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 21 Dec 2008, 0760C

Chingangbam Romesh Singh, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 21 Dec 2008, 0761D

Pushpendra Singh, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 21 Dec 2008, 0762E

Amit Hooda, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 21 Dec 2008, 0763J

Surendra Kumar Karwasara, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 21 Dec 2008, 0764L

Nameirakpam Jaswant, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 21 Dec 2008, 0765M

Sidharth Dagar, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 21 Dec 2008, 0766P

Ashutosh Pandey, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 21 Dec 2008, 0767Q

Goutam Adhikari, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 21 Dec 2008, 0768S

Subhash Kapoor, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 21 Dec 2008, 0769V

Chandrapal Dahiya, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 21 Dec 2008, 0770X

Sukhminder Singh, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 21 Dec 2008, 0771C

Ranpreet Singh, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 21 Dec 2008, 0772D

Rakesh Raushan, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 22 Dec 2008, 0773E

Manujendra Kumar Singh, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 23 Dec 2008, 0774J

Abhishek Yadav, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 02 Jan 2009, 0775L

Raju Sharma, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 12 Jan 2009, 0776M

T Arun, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 18 Jan 2009, 0777P

Nikhil Mahajan, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 09 Feb 2009, 0778Q

Prashant Singh, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 09 Feb 2009, 0779S

Subash Suresh, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 09 Feb 2009, 0780V

Gaurav Rao, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 09 Feb 2009, 0781X

Harkanwal Singh Khera, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 09 Feb 2009, 0782C

Arun K Prathap, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 09 Feb 2009, 0783D

Brijesh Bhatt, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 04 Jan 2009, 0784E

Navneet Moorthy, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 18 Feb 2009, 0785J

Raj Kumar, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 24 Feb 2009, 0786L

Abhideep Singh, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 16 Mar 2009, 0787M

Anuraj Negi, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 16 Mar 2009, 0788P

Kartik Kumar, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 16 Mar 2009, 0789Q

Ashutosh Sachan, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 16 Mar 2009, 0790S

Shyam Sunder, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 30 Mar 2009, 0791V

Shanta Kumar, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0792X

Krishna Bahadur Tiwari, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0793C

Prabsimran Jawa, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0794D

Sumit Rawat, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0795E

Neetu Singh Bartwal, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0796J

Kedar Singh Bohra, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0797L

Ramchandra Dashrat Yadav, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0798M

Jobin George, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0799P

Ferozkhan Ahmedpasha Pathan, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0800Q

Ashish Tiwar, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0801S

Suresh S, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0802V

Anshul Sheoran, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0803X

Rohan Sinha, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0804C

Akshith Katyal, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0805D

Anurag Thori, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0806E

Poonam Saini, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0807J

Ranveer Singh, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0808L

Sandeep Richard D Cunha, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 26 Jun 2009, 0809M

Anubha Singh, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 17 Jul 2009, 0810P

Rohit Kulkarni, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 17 Jul 2009, 0811Q

Kamal Singh Butola, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 17 Jul 2009, 0812S

Atul Kumar Shukla, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 17 Jul 2009, 0813V

Akshi, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 17 Jul 2009, 0814X

Mayank Verma, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 17 Jul 2009, 0815C

Saik Farooq, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 17 Jul 2009, 0816D

Mohit Moreishwar Junghare, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 0817E

U Veeramani, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 31 Aug 2009, 0818J

B Suresh Kumar, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 31 Aug 2009, 0819L

B S Rawat, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 31 Aug 2009, 0820M

V K Upadhyay, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 31 Aug 2009, 0821P

K Kumar, appointed as Assistant Comdt(GD/PN) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 31 Aug 2009, 0822Q

#### TECHNICAL

Gurpeet Singh, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 02 Aug 2008, 5103V

Roshan Lal, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 29 Aug 2008, 5104X

K S Unnikrishnan, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 29 Aug 2008, 5105C

Ramesh Babu, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 22 Jan 2009, 5106D

Satnam Singh Mann, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 21 Jan 2009, 5107E

Venkata Srinivasa Rao Pamarthi, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 02 Aug 2008, 4157V

Harikesh Kumar, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 29 Aug 2008, 4158X

P S Sughesh, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 29 Aug 2008, 4159C

Jai Prakash Shukla, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 06 Sep 2008, 4160D

Sanjeev Kumar Yadav, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 11 Feb 2009, 4161E

Rizwan Khan, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 10 Feb 2009, 4162J

Rohit Pandita, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 13 Feb 2009, 4163L

Ishwar Chand, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 4164M

Vijay Partap Yadav, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 4165P

Shushant Subhash Deshmukh, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 4166Q

Dinesh Madhukarrao Jadhav, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 4167S

Sachin Krishnan M, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 4168V

Sajith S, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 4169X

Janoy Thomas, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 4170C

R N Sivababu Nisankarrao, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 4171D

J Rajan, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 17 Jul 2009, 4172E

Sunil Chauhan, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 17 Jul 2009, 4173J

Tushara Parekh, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 5108J

Mohammad Asif, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 5109L

Ankur Panwar, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 5110M

Rahul Dixit, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 5111P

Rakesh Kumar, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 5112Q

Avinandan Mitra, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 5113S

Anand B, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 25 Jun 2009, 5114V

Sharath Girish P, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 17 Jul 2009, 4174L

Akhil Vijay Joshi, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 17 Jul 2009, 4175M

Anand Kumar, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 17 Jul 2009, 4176P

Vinayak Srivastava, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 17 Jul 2009, 4177Q

B D Gaikwad, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 31 Aug 2009, 4178S

Narpat Singh, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 31 Aug 2009, 4179V

R P Jaiswal, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 31 Aug 2009, 4180X

Kumar Mangalam, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 17 Jul 2009, 5115X

Vikas Dalal, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 17 Jul 2009, 5116C

Ashish Pandey, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 17 Jul 2009, 5117D

Manoj Kumar Sharma, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 31 Aug 2009, 5118E

K Dutt, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 31 Aug 2009, 5119J

Pushpendra S Panwar, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 31 Aug 2009, 5120L

T K Singh, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 31 Aug 2009, 5121M

V Natarajan, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 31 Aug 2009, 5122P

B D Paste, appointed as Assistant Comdt(Technical) in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- on probation of two years, 31 Aug 2009, 5123Q

T C SHARMA  
Under Secy (CG)

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 195, dated 31st March 2010—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (Pay Band-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- :—

PIN No., Name, Estt./Lab and Date of Joining

2007AB1339 Shri F U John Paul, 2 AFSB, Mysore, 12 Dec 2007

8—34 GI/2010

2009AB1507 Ms Nischitha Barke, 4 AFSB, Varanasi, 09 Apr 2009

2008AB1526 Shri Saurabh Maheshwari, ADE, Bangalore, 03 Dec 2008

2008AB1547 Shri Devesh Kumar, ADE, Bangalore, 03 Dec 2008

2008AB1033 Shri Amit Meena, ANURAG, Hyderabad, 21 May 2008

2009AB1466 Ms V Deepa, ASL, Hyderabad, 08 Apr 2009

2008AB1072 Shri Manmadha Rao Menda, ASL, Hyderabad, 21 May 2008

2008AB1615 Shri Naveen Kumar G, ASL, Hyderabad, 03 Dec 2008

2008AB1411 Ms M Reshma Gopal, ASL, Hyderabad, 21 May 2008

2008AB1086 Shri Gautam Banik, ASL, Panagarh, 21 May 2008

2008AB1048 Ms Urvashi Sharma, ARDE, Pune, 21 May 2008

2008AB1065 Shri Amitesh Goyal, ARDE, Pune, 21 May 2008

2008AB1639 Shri Mandeep Singh, CABS, Bangalore, 30 Sep 2008

2008AB1556 Shri Ashutosh Pandey, CABS, Bangalore, 03 Dec 2008

2008AB1538 Shri Peayush Kr. Choubey, CABS, Bangalore, 03 Dec 2008

2007AB1074 Shri Bhaskar Ranjan Kujur, CABS, Bangalore, 23 May 2007

2008AB1510 Shri Sukhen Saha, CABS, Bangalore, 15 Sep 2008

2008AB1139 Shri Sunil Kant Dwivedi, CABS, Bangalore, 21 May 2008

2008AB1106 Shri Vivek Kumar, CABS, Bangalore, 21 May 2008

2008AB1145 Shri Mahaveer Prasad, CAIR, Bangalore, 21 May 2008

2007AB1049 Shri Sreejesh S, CAIR, Bangalore, 23 May 2007

2007AB1086 Shri G V Mannu, CEMILAC, Bangalore, 14 Nov 2007

2007AB1336 Shri Goli Chandra Sekhar, CVRDE, Chennai, 31 Dec 2007

2008AB1160 Shri Rajaraman V, CVRDE, Chennai, 21 May 2008

2007AB1348 Shri Brajesh Singh, Command Hospital (EC), Kolkata, 24 Dec 2007

- 2008AB1235 Ms Payal Saxena, DEAL, Dehradun, 21 May 2008
- 2008AB1254 Ms Dhanya V, DEBEL, Bangalore, 21 May 2008
- 2008AB1201 Shri Gaurav Gupta, DARE, Bangalore, 21 May 2008
- 2008AB1203 Shri Devendra Upadhyay, DARE, Bangalore, 21 May 2008
- 2008AB1292 Shri Rahul Sharma, DEAL, Dehradun, 14 Nov 2007
- 2008AB1291 Ms Sheilu Singh, DLRL, Hyderabad, 21 May 2008
- 2008AB1295 Shri M S Reddy M, DLRL, Hyderabad, 21 May 2008
- 2008AB1296 Shri J Reddy Gampala, DLRL, Hyderabad, 21 May 2008
- 2008AB1266 Shri J Nanda Kishore, DLRL, Hyderabad, 21 May 2008
- 2008AB1642 Shri Manjeet Singh, DLRL, Hyderabad, 15 Sep 2008
- 2007AB1337 Shri A K Sonkar, DMSRDE, Kanpur, 14 Nov 2007
- 2008AB1326 Shri Ajit Shankar Singh, DMSRDE, Kanpur, 21 May 2008
- 2009AB1004 Shri Vajinder Singh Arora, DMRL, Hyderabad, 02 Apr 2009
- 2009AB1502 Dr Ashok Kumar, DIHAR, Leh, 25 Mar 2009
- 2008AB1373 Shri Suresh L, DRDL, Hyderabad, 21 May 2008
- 2007AB1135 Shri Pandu Karantoth, DRDL, Hyderabad, 23 May 2007
- 2008AB1561 Shri Ushnish Banerjee, GTRE, Bangalore, 03 Dec 2008
- 2008AB1021 Shri Lalit Singh Bisht, GTRE, Bangalore, 21 May 2008
- 2008AB1018 Shri Santosh Muthe, GTRE, Bangalore, 21 May 2008
- 2008AB1020 Shri Rajesh Sundrani, GTRE, Bangalore, 21 May 2008
- 2008AB1528 Shri Avtar Singh, HEMRL, Pune, 03 Dec 2008
- 2009AB1465 Ms Swati Sachdeva, HEMRL, Pune, 14 May 2009
- 2008AB1592 Shri Rakesh Kumar Garg, HEMRL, Pune, 03 Dec 2008
- 2008AB1070 Shri Subir Kumar Mandal, HEMRL, Pune, 21 May 2008
- 2008AB1098 Ms Sima Gautam, INMAS, Delhi, 21 May 2008
- 2007AB1019 Shri K Choudhary, INS Shivaji, Lonavala, 14 Nov 2007
- 2007AB1163 Shri Suresh Kumar, ISSA, Delhi, 14 Nov 2007
- 2004AB1172 Shri S Dinesh Rajan, ITR, Balasore, 07 Jan 2004
- 2008AB1588 Shri Rajesh Kumar, ITR, Balasore, 03 Dec 2008
- 2007AB1037 Shri Ashok Kumar, LRDE, Bangalore, 14 Nov 2007
- 2008AB1181 Ms Mamta Kumari, LRDE, Bangalore, 21 May 2008
- 2007AB1040 Shri Kulwant Singh, LRDE, Bangalore, 14 Nov 2007
- 2008AB1166 Shri Vijay Kumar Kashyap, LRDE, Bangalore, 21 May 2008
- 2008AB1167 Shri Anirudha Sane, LRDE, Bangalore, 21 May 2008
- 2005AB1081 Shri K P Manjrekar, MTRDC, Bangalore, 14 Apr 2005
- 2007AB1250 Ms Binita Sahu, NSTL, Vishakhapatnam, 23 May 2007
- 2009AB1504 Shri Venu Anand, NSTL, Vishakhapatnam, 14 Oct 2009
- 2008AB1228 Shri P N Raju, NSTL, Vishakhapatnam, 21 May 2008
- 2008AB1216 Shri Suneel Kumar Mishra, NSTL, Vishakhapatnam, 21 May 2008
- 2008AB1306 Shri Ramesh R, RCI, Hyderabad, 21 May 2008
- 2008AB1281 Shri M Ramaswamy, RCI, Hyderabad, 21 May 2008
- 2008AB1279 Shri Pankaj Kumar Singh, RCI, Hyderabad, 21 May 2008
- 2008AB1327 Shri Subrata Kumar Raut, RCMA, Koraput, 21 May 2008
- 2007AB1214 Shri Sandeep Kumar Gupta, R&DE(E), Pune, 25 May 2007
- 2008AB1609 Shri Santosh Borle, SFC, Jagdalpur, 03 Dec 2008
- 2009AB1501 Shri Dinesh Singh, SSB, Bhopal, 01 Apr 2009

2007AB1180 Ms Isha Yadav, SSPL, Delhi, 23 May 2007

2008AB1363 Shri Jitender Kumar, SSPL, Delhi, 21 May 2008

2008AB1581 Shri Yogeshwar Nath, TBRL, Chandigarh, 03 Dec 2008

2008AB1401 Shri Promod Kumar Tiwari, WESEE, Delhi, 21 May 2008

T ABDURRASSAK  
Jt Dir (Pers)

#### ARMY BRANCH

No. 196, dated 31st March 2010—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank and date specified :—

#### REGULAR ARMY DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Subedar Major (GD)

Subedar Major Madhan Singh (JC-199321M), Formerly Kumaon Regt, 22 Dec 2008

In the rank of Subedar (GD)

Subedar Vijay Kumar Pandey (JC-255301N), Formerly Arty, 22 Dec 2008

Subedar Chhering Spalwar (JC-588122M), Formerly Ladakh Scouts, 22 Dec 2008

Subedar Tirath Singh (JC-419159N), Formerly Mech Inf, 22 Dec 2008

Subedar Ranbir Singh (JC-239355X), Formerly Armd Corps, 22 Dec 2008

Subedar Chandan Giri Goswami (JC-539244M), Formerly Kumaon Regt, 22 Dec 2008

Subedar Surendra Prasad Singh (JC-188795N), Formerly Bihar Regt, 01 Jan 2009

In the rank of Nb Subedar (GD)

Nb Subedar Rajender Singh (JC-498555H), Formerly Sikh Regt, 22 Dec 2008

Nb Subedar RC Asok Kumar (JC-438557W), Formerly Madras Regt, 22 Dec 2008

Nb Subedar Pramatha Kumar Biswas (JC-240155F), Formerly Armd Corps, 22 Dec 2008

Nb Subedar Anant Kumar Mall (JC-580014N), Formerly Jak Rif, 22 Dec 2008

Nb Subedar Sarfuddin Ahmad (JC-469842K), Formerly Raj Rif, 22 Dec 2008

Nb Subedar Radha Krishan (JC-530040Y), Formerly Garhwal Rif, 22 Dec 2008

Nb Subedar Birendra Kumar Singh (JC-558433L), Formerly Bihar Regt, 01 Jan 2009

PRADEEP KUMAR  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 197, dated 31st March 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION (ARMY MEDICAL CORPS)

Major Gen (& equivalent) to be Lt Gen (& equivalent)

P Bhargava (MR-03318H), 01 Jun 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2009

HL Kakaria (MR-03434L), 01 Jun 2009

BS Rathore (MR-03435N), 01 Jun 2009

D Ganguly (MR-03247M), 01 Aug 2009

Brig (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent)

MP Muttalikar (MR-03954W), 01 Dec 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Nov 2008

SK Nema (MR-03848X), 07 Dec 2008 with notional seniority without effect on pay & pension from 03 Nov 2008

SA Cruze (MR-03447H), 10 Feb 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2009

KK Singh (MR-03449N), 10 Feb 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2009

RP Choubey (MR-04188X), 10 Feb 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jan 2009

MN Sreeram (MR-04301F), 01 Jul 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Apr 2009

Harinder Singh (MR-03582W), 11 Jun 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 May 2009

Suveer Sharma (MR-04124M), 01 Jul 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 27 May 2009

Shalesh Rohatgi (MR-04361W), 01 Jul 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jun 2009

Ajit Singh Narula (MR-03738H), 01 Jul 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jun 2009

KR Salgotra (MR-04126X), 04 Aug 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Jul 2009

YS Sarma (MR-04410N), 01 Sep 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Aug 2009

Surg Cdr/Surg Capt (TS) to be Surg Capt (Selection & equivalent)

DK Ghosh (MR-06997M) (75348), 25 Feb 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 17 Jan 2009

R Ray (MR-06211Y) (75428), 25 Feb 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 23 Feb 2009

II Kedege (MR-05518X) (75391), 12 Aug 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 18 May 2009

S Narayan (MR-05533M) (75395), 12 Aug 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 06 Jun 2009

AK Naik (MR-05583X) (23758X), 10 Sep 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 15 Jul 2009

YASH PANDE  
Brig  
Dy DG AFMS (HR)

#### ARMY BRANCH

No. 198, dated 1st April 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Substantive Col (By Selection)

Pers No., Name, Arm & Subs Date

(IC-41753) MM Masur, Arty, 15 Mar 2006

T K DAS  
Dy Director  
MS-8A

#### ARMY BRANCH

No. 199, dated 1st April 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION (ARMY MEDICAL CORPS)

Surg Capt (& equivalent) to be Surg Cmde (& equivalent)

Pers No., Name, Arm & Subs Date

Pavan Sarin (MR-03715F) (75219), 14 Jan 2009

Girish Gupta (MR-05267Y) (75445), 11 Apr 2009 with notional seniority without effect on pay & pension from 09 Apr 2009

Major to be Lt Col

Shaleen Trivedi (MR-07019F), AMC, 30 Jun 2009

AK Singh (MR-07022F), AMC, 30 Jun 2009

MLN Prasad (MR-07024M), AMC, 30 Jun 2009

Prafulli Mohan (MR-07025P), AMC, 30 Jun 2009

Gautam Mullick (MR-07027A), AMC, 30 Jun 2009

RK Sharma (MR-07028H), AMC, 30 Jun 2009

Sameer Mehrotra (MR-07032L), AMC, 04 Jul 2009

Manoj Kumar K (MR-07957F), AMC, 20 Jul 2009

Chandra Pratap Singh (MS-13532Y) (MR-07813Y), AMC, 21 Nov 2008

RS Rajput (MR-07033N), AMC, 11 Jul 2009

Mamta Sarin (MR-08003H), AMC, 29 Jul 2009

Adnan Masood (MR-07829K), AMC, 01 Aug 2009

Alok Gupta (MR-07986W), AMC, 04 Aug 2009

Sunil Kumar Anand (MR-08104W), AMC, 05 Aug 2009

Debasish Ghosh (MR-07834P), AMC, 15 Aug 2009

Sanjay Kumar (MR-07771X), AMC, 04 Dec 2008

Seema Rai (MR-07518W), AMC, 20 Jan 2009

Sameer Kumar (MR-07020W), AMC, 30 Jun 2009

Dilpreet Singh Gulati (MR-07021Y), AMC, 30 Jun 2009

Prakash Veer (MR-07031H), AMC, 30 Jun 2009

Capt to be Major

Bidhan Chander (MR-08125M), AMC, 30 Aug 2009

Seema Prakash (MR-08126P), AMC, 09 Aug 2009

YASH PANDE  
Brig  
Dy DG AFMS (HR)

#### ARMY BRANCH

No. 200, dated 5th April 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

#### TERRITORIAL ARMY TERRITORIAL COMMISSION

To be Maj

Capt (Mrs) CR Austin TA(N)-1086, MNS (TA), 06th Feb 2009

JAI RAJ  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 201, dated 5th April 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY SHORT SERVICE COMMISSION (WSES)

Lt to be Capt

WS No., Name Arm/Service

01227 Anupreet, Sigs



01228 Kanika Gupta, Sigs  
 01229 Jadhav Madhavi Dadabhau, Sigs  
 01238 Shilpa Phapale, Sigs  
 01239 Shikha Sharma, Engrs  
 01242 Alpana, EME  
 01244 Sonia Elsa Thomas, Engrs  
 01247 Kavita Dangi, EME  
 01249 Kadu Richa Balkrishna, Engrs  
 01251 Ramanpreet Kaur, Sigs  
 01252 Shyama Prabha PV, Engrs  
 01253 Yadav Shikha, Engrs  
 01256 Kavita Misra, EME  
 01258 Smita Verma, Engrs  
 01262 Ritu, Engrs  
 01263 Harleen Kaur, Sigs  
 01264 M Zulaga Bivi, Engrs  
 01265 Navneet Jaswal, EME  
 01272 Samprada Mittal, Sigs  
 01277 Nair Sreeja Sreedharan, Sigs

—18 Sep 2009—

JASWANT SINGH  
 Jt Dir  
 MS-8C

## ARMY BRANCH

No. 202, dated 5th April 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY  
 RECORDS THE MIR

To be Sub Maj

Sub (DVRAFV) Devi Lal (No. JC-418997W), 02 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Sub Maj wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Sub (GNRPT) K Chandra Sekhaa Rao (No. JC-419195Y), 01 Sep 2009

To be Sub

Nb Sub (OWAFV) Ram Naresh (No. JC-420705F), 17 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Sub Maj wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (OWAFV) Kirpal Singh (No. JC-420159A), 24 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Sub Maj wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

9—34 GI/2010

Nb Sub (GNRPT) Alam Singh (No. JC-420055Y), 02 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Sub Maj wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub (DVRAFV) Devanand Sharma (No. JC-420216W), 02 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the Rank of Sub Maj wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

J ROY CHOWDHARY  
 Under Secy

## ARMY BRANCH

No. 203, dated 5th April 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY  
 DEFENCE SECURITY CORPS

(To be Subs Sub Maj (GD))

Sub Harjinder Singh (JC-157859M), 01 Sep 2009

(To be Subs Sub (GD))

Nb Sub Iqbal Singh (JC-841288F), 01 Aug 2009

Nb Sub Lalit Kumar Thapa (JC-841302H), 01 Sep 2009

Nb Sub Gian Chand (JC-841318N), 01 Sep 2009

Nb Sub Daya Sagar Ramoul (JC-841324F), 01 Sep 2009

Nb Sub Gurmeet Singh (JC-498388X), 01 Oct 2009

Nb Sub Dhan Bahadur Thapa (JC-617261F), 01 Oct 2009

Nb Sub Mohammad Ilaas (JC-305714W), 01 Oct 2009

Nb Sub Natwar Lal Pandey (JC-296746P), 01 Oct 2009

Nb Sub Prakram Chand (JC-448819H), 01 Oct 2009

To be Subs Sub Maj (Clk)

Sub Clk Hakam Singh Gill (JC-840854K), 01 Oct 2009

To be Substantive Subedar (Clk)

Nb Sub Clk M Sree Kantan Nair (JC-841887F), 01 Aug 2009

Nb Sub Clk Khade Vilas Babu Rao (JC-841927X), 01 Oct 2009

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Yadhu Nath Singh (JC-840428W), 01 May 2009

Sub KD Chathunni (JC-184940H), 01 Jul 2009

Sub Ajit Singh (JC-211012Y), 01 Aug 2009

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Romal Singh (JC-578997P), 01 Jul 2009

Nb Sub Surendra Singh Negi (JC-841281X), 01 Jul 2009

Nb Sub P Raju (JC-841282A), 01 Jul 2009

Nb Sub Kundan Singh Bhandari (JC-841295X), 01 Aug 2009

Nb Subedar Chander Pal (JC-199232N), 01 Aug 2009

To be Subs Sub (Clk)

Nb Sub Clk Jitendra Nath Singh (JC-841869Y), 01 Aug 2009

Nb Sub Clk Milap Chand Rana (JC-841871W), 01 Aug 2009

Nb Sub Clk Harnam Singh (JC-841886Y), 01 Aug 2009

Nb Sub Clk Bhanwar Singh (JC-841888K), 01 Aug 2009

To be Nb Sub (GD)

Hav Govind Singh (No. 10302027M now JC-842609A), 23 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Raveendran CK (No. 10327740P now JC-842617Y), 05 Aug 2009\*\*

Hav Raj Kumar (No. 13735558A now JC-842621F), 01 Aug 2009\*\*

Hav Darshan Pal Singh (No. 10404324N now JC-842624P), 18 Aug 2009\*\*

Hav Rajinder Singh (No. 3975690P now JC-842625X), 14 Aug 2009\*\*

Hav Parkash (No. 10478800W now JC-842626A), 07 Aug 2009\*\*

Hav Sidh Ganesh Ashok Ambadas (No. 10118622W now JC-842627HY), 05 Aug 2009\*\*

Hav Hukam Chand (No. 10134190W now JC-842628L), 06 Aug 2009\*\*

Hav Mahipal Singh (No. 1260434K now JC-842631L), 03 Aug 2009\*\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Mohender Singh (No. 10134389X now JC-842634Y), 01 Sep 2009\*\*\*

Hav Barun Mukhia (No. 13609314A now JC-842635F), 01 Sep 2009\*\*\*

Hav Hanuman Singh Chauhan (No. 2973765M now JC-842638P), 01 Sep 2009\*\*\*

Hav Shivji Tiwari (No. 8026637Y now JC-842637Y), 01 Sep 2009\*\*\*

Hav Amar Singh (No. 13736325L now JC-842640M), 01 Sep 2009\*\*\*

Hav Parma Nand (No. 2670841K now JC-842641P), 01 Sep 2009\*\*\*

Hav Sasidharan Nair S (No. 10289256W now JC-842644H), 01 Sep 2009\*\*\*

Hav Suwash Tiwari (No. 6462842M now JC-842646N), 01 Sep 2009\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Shinde Saheb Rao Manik Rao (No. 1544353Y now JC-842647W), 24 Sep 2009\*\*\*\*

\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Ikabal Ahamad Mainuddin Tapal (No. 2761579A now JC-842531A), 05 Aug 2009\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Radha Mohan Sharma (No. 14912274K now JC-842612A), 01 Aug 2009\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Shamsher Singh (No. 10197953W now JC-842633W), 19 Sep 2009\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh K (No. 10290512M now JC-842547L), 01 Jun 2009\*

Hav Siddappa Jinarali (No. 143112121 now JC-842562A), 01 Jun 2009\*

Hav Gurdip Singh (No. 3369627M now JC-842574P), 08 Jun 2009\*

Hav Ranvir Singh (No. 14452145K now JC-842583W), 01 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Mashi Das Aind (No. 4254837W now JC-842589X), 01 Jul 2009\*\*

Hav S Devaraj (No. 10165422L now JC-842593A), 01 Jul 2009\*\*

Hav Lokare Ram Ratan (No. 10118693X now JC-842594H), 01 Jul 2009\*\*

Hav Jagdish (No. 10134147P now JC-842599F), 01 Jul 2009\*\*

Hav Shyam Prakash (No. 10404293Y now JC-842600L), 17 Jul 2009\*\*

Hav Hoshiyar Singh Negi (No. 4052102K now JC-842601N), 15 Jul 2009\*\*

Hav Shahu Londhe (No. 10118418-X now JC-842604-F), 20 Jul 2009\*\*

Hav MD Rejaque Ali (No. 10243615A now JC-842605K),  
17 Jul 2009\*\*

Hav Ramesh Singh (No. 10436162F now JC-842610P),  
21 Jul 2009\*\*

\*\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2009  
without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Anil Kumar (No. 4253363N now JC-842613H),  
01 Aug 2009\*\*\*

Hav Clk Dalip Singh Rautela (No. 4057945F now JC-  
842615N), 01 Aug 2009\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef  
01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

PRADEEP KUMAR  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 204, dated 6th April 2010—The President is pleased  
to make the following promotions/appointments :—

#### REGULAR ARMY

#### CORPS OF SIGNALS

To be Subs Sub Maj (Y of S)

Sub Balappa Patil (JC-368978M), 11 Dec 2008

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep  
2008 without effect on pay and allowances)

Sub C K Moorthy (JC-369250L), 01 Jan 2009

Sub Hardev Singh (JC-368983X), 01 Mar 2009

Sub Hari Pal Singh (JC-369238K), 06 Mar 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar  
2009 without effect on pay and allowances)

Sub Roshan Lal (JC-369533M), 01 Mar 2009

Sub Sunny Joseph K (JC-369249W), 01 Sep 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar  
2009 without effect on pay and allowances)

Sub Tankadhara Sahu (JC-369540H), 01 Apr 2009

Sub Hansraj Sharma (JC-369543W), 01 Jul 2009

Sub Ravinder Singh (JC-369549X), 02 Sep 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep  
2009 without effect on pay and allowances)

Sub Kedar Singh (JC-369550M), 01 Sep 2009

Sub Devi Datt (JC-369554H), 16 Sep 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep

2009 without effect on pay and allowances)

Sub Karan Singh (JC-369555L), 01 Oct 2009

To be Subs Sub Maj (F of S)

Sub Balbir Singh (JC-367123X), 01 Feb 2008

Sub Om Prakash (JC-367920H), 01 Jul 2008

Sub Chander Bhan (JC-367929X), 01 Sep 2008

Sub Sitaram Sharma (JC-367954W), 17 Nov 2008

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov  
2008 without effect on pay and allowances)

Sub Dinesh Kumar (JC-367955Y), 01 Dec 2008

Sub Jai Ram Ojha (JC-368541Y), 01 Jan 2009

Sub Shriniwas Singh (JC-367257W), 01 Jan 2009

Sub Bhagwati Prasad (JC-368545P), 01 Feb 2009

Sub Ramesh Kumar (JC-367964A), 01 Feb 2009

Sub Bhanu Pratap Shishu (JC-367965H), 01 Mar 2009

Sub M Pattabi (JC-367967N), 20 May 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr  
2009 without effect on pay and allowances)

Sub Suresh Kumar (JC-367968W), 01 Apr 2009

Sub S Gurunathan (JC-367969Y), 01 May 2009

Sub Hoshiyar Singh Rawat (JC-368549L), 01 Jun 2009

Sub Inderjit (JC-367972Y), 01 Jun 2009

Sub RC Chopra (JC-368550A), 01 Jul 2009

Sub Kishan Lal Gujar (JC-368551H), 01 Aug 2009

Sub Ram Saran (JC-367976P), 01 Aug 2009

Sub Vikram Singh (JC-368554W), 01 Sep 2009

Sub Mohan Lal (JC-368558M), 01 Oct 2009

Sub BR Bishnoi (JC-368562P), 01 Oct 2009

To be Subs Sub Maj (OP Ciph)

Sub Rakesh Kumar Sharma (JC-368955L), 22 Jun 2008

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr  
2008 without effect on pay and allowances)

Sub Banku Ram Daroch (JC-369325X), 01 Jun 2008

Sub Dilbag Singh Dalal (JC-369388A), 01 Sep 2008

Sub P Jacob (JC-369390X), 01 Nov 2008

Sub Hawa Singh (JC-369327H), 01 Jan 2009

Sub Rabindra Kumar Pattnayak (JC-369914N), 01 Jan  
2009

Sub Satbir Singh (JC-370837W), 01 Mar 2009

Sub Narender Singh Negi (JC-371136M), 01 Mar 2009

Sub Dwaraswami S (JC-371378P), 01 Apr 2009

Sub Sunil Kumar (JC-371382X), 04 May 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2009 without effect on pay and allowances)

Sub K Mada Swamy (JC-371630H), 01 May 2009

Sub Balbir Singh (JC-371636K), 01 Jun 2009

Sub Babu Lal Sharma (JC-371834P), 01 Jul 2009

Sub JS Turn (JC-371904H), 06 Jul 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Palwinder Singh (JC-372067N), 01 Jul 2009

Sub Vasudevan Nair N (JC-371905L), 01 Aug 2009

Sub Ujjal Kanti Samanta (JC-372234Y), 01 Sep 2009

Sub Ram Chand (JC-372235F), 01 Oct 2009

Sub Balakrishnan Nair KR (JC-372263N), 01 Oct 2009

Sub Suram Singh (JC-372265Y), 01 Oct 2009

To be Subs Sub Maj (OSS)

Sub Shashi Kant Singh (JC-368669K), 01 Feb 2008

Sub Jagan Singh (JC-369920F), 01 Dec 2008

Sub Shrikant Gautam (JC-370258K), 01 Jan 2009

Sub Lotan Chandra Upadhyay (JC-370263P), 01 Feb 2009

Sub Sarvjeet Singh (JC-370264X), 27 Feb 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Yogendra Pal Singh (JC-370289K), 01 Mar 2009

Sub Parmjit Singh (JC-368885X), 01 Mar 2009

Sub Piar Chand (JC-370845P), 01 Apr 2009

Sub Harmesh Singh (JC-371385L), 01 May 2009

Sub Ashok Kumar (JC-371519Y), 01 May 2009

Sub Shambhu Dayal Jat (JC-371520N), 01 Jul 2009

Sub Shyam Lal (JC-368939N), 22 Sep 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Vishnu Pal Singh (JC-371641P), 01 Sep 2009

Sub Shishpal Singh Negi (JC-371642X), 01 Sep 2009

To be Subs Sub Maj (Clk SD)

Sub Damodar Singha (JC-370084P), 03 Mar 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Dalel Singh (JC-370091L), 05 Mar 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Ummed Singh (JC-370092N), 01 Mar 2009

Sub Subramoniam P (JC-372449X), 01 Mar 2009

Sub Jayram Chauhan (JC-370351L), 01 Jul 2009

Sub Mahavir Prasad Yadav (JC-370348L), 01 Jul 2009

Sub Ajit Kumar M (JC-370357M), 01 Aug 2009

Sub Shri Krishan Nishal (JC-370388M), 16 Sep 2009

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

To be Subs Sub Maj (SKT)

Sub Biswa Prakash Sahoo (JC-370669H), 01 Jun 2008

Sub Rajendra Singh (JC-371524K), 01 Mar 2009

Sub Joginder Paul (JC-371526P), 01 Jul 2009

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub M Rao Pedada (JC-371033N), 01 Mar 2008

Sub Dan Singh (JC-371037K), 01 Apr 2008

Sub Piara Lal (JC-371042P), 01 Apr 2008

Sub Haridas Singh (JC-371044A), 11 Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Surinder Kumar (JC-371066Y), 01 Apr 2008

Sub Chandra Mohan Jha (JC-371068K), 01 Apr 2008

Sub Suresh Kumar (JC-371071K), 01 Apr 2008

Sub Chaman Lal (JC-371075A), 16 Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Raja Sekhara Kurup G (JC-371076H), 11 Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Selvaraj D (JC-371104K), 01 Apr 2008

Sub Lakshmi Narayan Jha (JC-371108A), 05 Apr 2008

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Abraham PV (JC-371116Y), 03 May 2008

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Prithvi Chand Sharma (JC-371123P), 14 Jun 2008

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Narayan Ram (JC-371126H), 18 Jul 2008

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Sub Sham Singh Rana (JC-371128N), 01 May 2008

- Sub Raj Kumar (JC-371133Y), 01 May 2008
- Sub Ram Pal Sharma (JC-371134F), 01 May 2008
- Sub Harbhajan Lal (JC-371192L), 01 Jun 2008
- Sub Mukund Lal Sharma (JC-371197K), 05 Jun 2008  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Subhash Chawla (JC-371202K), 04 Jun 2008  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Ugma Ram (JC-371203M), 20 Dec 2008  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Balakrishnan Sharma (JC-371204P), 01 Jul 2008
- Sub Shiv Karan Singh (JC-371205X), 16 Jul 2008  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Sabu VV (JC-371207H), 21 Jul 2008  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Raj Singh (JC-371210H), 12 Aug 2008  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Kripal Singh Mehta (JC-371211L), 09 Aug 2008  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Kulwant Singh (JC-371214Y), 16 Sep 2008  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Dharam Pal (JC-371215F), 13 Aug 2008  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Om Prakash (JC-371241H), 18 Sep 2008  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Sujan Singh (JC-371297P), 10 Sep 2008  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Harjinder Singh (JC-371298X), 01 Oct 2008
- Sub Sardari Lal (JC-371302P), 01 Oct 2008
- Sub Vijayan Pillai KC (JC-371304A), 01 Oct 2008
- Sub Ashok Kumar (JC-371309Y), 01 Oct 2008
- Sub Ravinder Singh (JC-371312Y), 03 Oct 2008  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Daljit Ray (JC-371313F), 01 Oct 2008
- Sub Wakhare Ramdas Genu (JC-371316P), 06 Oct 2008  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub JS Jamawal (JC-371318A), 17 Dec 2008  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Ashwani Kumar Sharma (JC-371320X), 01 Dec 2008
- Sub Sami Muhammad (JC-371322H), 13 Dec 2008  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Ishwar Singh (JC-371331K), 30 Jan 2009  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)
- Sub Sushil Kumar Sharma (JC-371334X), 01 Dec 2008
- Sub Romesh Chand (JC-371335A), 01 Jan 2009
- Sub Surinder Kumar (JC-371439F), 26 Jan 2009  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)
- Sub Rajinder Nath (JC-371457K), 31 Jan 2009  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)
- Sub Sahajuddin Sheikh (JC-371012X), 02 Jan 2009
- Sub Dilbagh Singh (JC-371038M), 02 Jan 2009
- Sub Govind Singh (JC-371122M), 01 Mar 2009
- Sub Govind Singh (JC-371127L), 06 Mar 2009  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)
- Sub Brahm Singh (JC-371190A), 01 Mar 2009
- Sub Arvind Kumar (JC-371299A), 01 Mar 2009
- Sub Nityananda Ghosh (JC-371440W), 04 Mar 2009  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2009 without effect on pay and allowances)
- Sub Shambhu Nath Singh (JC-371470N), 05 Apr 2009  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)
- Sub Jairam Singh (JC-371474K), 03 Apr 2009  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)
- Sub Rajeevan M (JC-371475M), 01 Apr 2009
- Sub Dhruva Prasad (JC-371499W), 01 Apr 2009
- Sub Mohana Kumar V (JC-371535W), 06 Apr 2009  
(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Sub Ram Narayan (JC-371561X), 01 Apr 2009  
 Sub SC Sharma (JC-371562A), 01 Apr 2009  
 Sub Naresh Kumar (JC-371583W), 01 Apr 2009  
 Sub S Langamanna Patil (JC-371591P), 08 Apr 2009  
 (Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)  
 Sub KC Ghosh (JC-371610P), 01 Apr 2009  
 Sub Sham Lal Motan (JC-371615N), 01 May 2009  
 Sub Ayaz Warish Khan (JC-371616W), 01 Jun 2009  
 Sub Sunney John (JC-371660A), 01 Jun 2009  
 Sub Kuldip Singh (JC-371665Y), 01 Jun 2009  
 Sub Surendran Pillai N (JC-371666F), 01 Jul 2009  
 Sub Ram Niwas (JC-371708H), 01 Jul 2009  
 Sub Sabir Ali (JC-371711H), 01 Jul 2009  
 Sub Kameshwar Chaudhary (JC-371726L), 01 Jul 2009  
 Sub Krishna Deo Mishra (JC-371759W6L), 01 Jul 2009  
 Sub Naresh Pal (JC-371606M), 01 Aug 2009  
 Sub Jeet Singh (JC-371764F), 03 Aug 2009  
 (Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)  
 Sub Balwan Singh Bajar (JC-371770P), 01 Aug 2009  
 Sub Subhash Yadav (JC-371771X), 01 Sep 2009  
 Sub Ravi Pal (JC-371800F), 01 Sep 2009  
 Sub Mulla Hussain Basha (JC-371802M), 01 Sep 2009  
 Sub Anwer Baig (JC-371806H), 01 Sep 2009  
 Sub Vijayan A (JC-371826W), 01 Sep 2009  
 Sub Ashok Kumar (JC-371843W), 01 Sep 2009  
 Sub Birendra Singh (JC-371867A), 01 Oct 2009  
 Sub Jacob Y (JC-371868H), 01 Oct 2009  
 Sub Ved Prakash (JC-371873N), 01 Oct 2009

A V BAGUR  
 Under Secy

#### CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 205, dated 6th April 2010—The President is pleased to make the following appointments/promotions :—

To be Sub Armr

Nb Sub Virendra Kumar Pandey (JC-760202X), 13 Apr 2009/01 Apr 2009\*

To be Sub Artzn AVN

Nb Sub Azad Ahmad (JC-761723X), 14 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Munim Khan (JC-761815K), 16 Jun 2009/01 Jun 2009\*

To be Sub Artzn (EC)

Nb Sub Durga Narayan (JC-760697P), 01 May 2009/01 Jan 2009\*

Nb Sub Ritu Bhanjan Singh (JC-760880X), 05 May 2009/01 Mar 2009\*

Nb Sub Kore Dilip Nabu (JC-760881A), 01 Mar 2009

Nb Sub Vijay Singh (JC-760746M), 01 Feb 2009

Nb Sub Selvan T (JC-760877X), 03 Mar 2009/01 Mar 2009\*

Nb Sub Har Dayal Swami (JC-761006K), 10 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Gokula Nand Joshi (JC-760750P), 02 Feb 2009/01 Feb 2009\*

Nb Sub Sunder Singh (JC-760876P), 02 Mar 2009/01 Mar 2009\*

Nb Sub Narpal Singh Chouhan (JC-760648M), 01 Jan 2009

Nb Sub Brahma Chand Singh (JC-760698X), 17 Feb 2009/01 Feb 2009\*

Nb Sub Vijay Kumar (JC-760706L), 02 Feb 2009/01 Feb 2009\*

Nb Sub Harish Chandra (JC-760699A), 02 Feb 2009/01 Feb 2009\*

Nb Sub Vijender Singh (JC-760879H), 06 May 2009/06 Mar 2009\*

Nb Sub Ramsharan Gurjar (No. 761556M), 12 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Kashmir Singh Chouhan (No. 761557P), 02 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Bansiram Meena (No. 760752A), 29 Jan 2009/01 Jan 2009\*

To be Sub Artzn (NE)

Nb Sub Hareram Prasad (No. 759703L), 01 May 2009

Nb Sub Hari Deo Singh (No. 759697H), 13 May 2009/01 May 2009\*

Nb Sub Upendra Kumar Naik (No. 759795H), 06 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Pramod Kumar (No. 759789P), 01 Jun 2009

Nb Sub Ashutosh Kuamr Rai (No. 759788M), 02 Jun 2009/01 Jun 2009\*

## To be Sub Clk (SD)

Nb Sub Rajesh Lal Verma (No. 756693F), 01 May 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Sadanandan V (No. 757030H), 13 May 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Shivananda Vadlar (No. 757035F), 01 Jun 2009

Nb Sub Amar Singh (No. 757038P), 01 Jun 2009

Nb Sub Babusenar Nair T (No. 757037M), 03 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Rajendra Tiwary (No. 757036K), 01 Jun 2009

## To be Sub DW

Nb Sub Mohammad Ismail (No. 760665M), 11 Mar 2009/03 Dec 2008\*

Nb Sub Pushpa Karan VC (No. 760851H), 23 May 2009/01 Dec 2008\*

Nb Sub Shiv Kumar Singh (No. 761384H), 12 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Hare Ram Chaubey (No. 760944X), 13 Jun 2009/03 Dec 2008\*

Nb Sub Uday Kumar Singh (No. 761023K), 13 Jun 2009/01 Dec 2008\*

Nb Sub Ninda Kumar Brahma (No. 761459P), 13 Jun 2009/01 Dec 2008\*

Nb Sub Bharat Singh (No. 761460K), 11 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Chandra Mohan Singh (No. 761794Y), 08 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Manmadhan T (No. 761466L), 05 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Hari Chand (No. 761625X), 09 Jun 2009/01 Jun 2009\*

## To be Sub Rec Mech

Nb Sub Ajoy Thappa (No. 754305A), 15 May 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Kamal Ranjan Hone Roy (No. 754306H), 18 May 2009/01 May 2009\*

## To be Sub SKT

Nb Sub Avdhesh Kumar Yadav (No. 757323N), 16 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Harshbardhan Pant (No. 757363P), 18 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Ajit Rajan Das Gupta (No. 758406L), 02 Jun 2009/01 Jun 2009\*

## To be Sub Tech

Nb Sub Lalan Kumar Singh (No. 758700L), 01 Jun 2009

Nb Sub Kutubuddin Mollah (No. 758696N), 02 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Suresh Singh (No. 758537W), 19 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Ram Nayayan (No. 758869A), 05 May 2009/01 May 2009\*

Nb Sub Umed Singh (No. 758342L), 02 May 2009/01 May 2009\*

Nb Sub Prem Prakash (No. 758507Y), 04 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Bhoop Singh (No. 758341H), 01 May 2009

Nb Sub Bed Prakash Vishwakarma (No. 758470H), 01 May 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Lakshmi Kant (No. 758591K), 07 May 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Om Prakash Singh (No. 758510Y), 29 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Swami Deen (No. 758531P), 27 Apr 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Lalit Kumar (No. 758473W), 06 May 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Kedar Bhikachan Sakharan (No. 758471L), 04 May 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Ajit Singh (No. 758475F), 01 May 2009

Nb Sub Vinodhan G (No. 759561Y), 06 May 2009/01 May 2009\*

Nb Sub Pushpinder Kumar (No. 758472N), 09 May 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Shiv Kumar Prasad Tiwari (No. 758780N), 08 May 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Lal Mani Shukla (No. 758856H), 01 May 2009

Nb Sub Ahibraran Singh (No. 758474Y), 01 May 2009

Nb Sub Hrishikesh Dubey (No. 758459K), 18 May 2009/01 Apr 2009\*

Nb Sub Krishana Kamal Ghosh (No. 758467H), 02 May 2009/01 May 2009\*

Nb Sub Sasi Kumar P (No. 758356L), 04 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Jai Krishan Rai (No. 758697W), 12 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Krishan Kumar (No. 761579N), 12 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Rakesh Kumar Sharma (No. 758357N), 08 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Shishu Pal Singh Yadav (No. 758692X), 02 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Shiv Prasad Yadav (No. 758955L), 01 Jun 2009

Nb Sub Sikander Singh (No. 758458F), 01 Jun 2009

Nb Sub Biswa Nath Maity (No. 758694H), 02 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub A Rajendran (No. 758873H), 01 Jun 2009

Nb Sub Ram Pratap (No. 758695L), 04 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Kaushal Kishor Srivastava (No. 758455N), 01 Jun 2009

Nb Sub Gurmeet Singh (No. 758355H), 01 Jun 2009

Nb Sub Chandra Kishore Jha (No. 758871X), 01 Jun 2009

Nb Sub Kailash Chandra (No. 758349P), 03 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Yeshwant Deshmukh (No. 758578A), 01 Jun 2009

Nb Sub Phoran Singh (No. 758690M), 04 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Vishnu Bhattacharya (No. 758353X), 02 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Tej Singh Ranawat (No. 758691P), 01 Jun 2009

Nb Sub Kalivarapu Sariam (No. 758456W), 05 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Krishna Kumar Thakur (No. 758457Y), 01 Jun 2009

Nb Sub Bhupal Singh (No. 758352P), 01 Jun 2009

Nb Sub Vidyapati Pandey (No. 758351M), 04 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Nb Sub Pawan Kumar (No. 758782Y), 01 Jun 2009

To be Sub Tech AVN

Nb Sub Dharamvir (No. 758234F), 05 May 2009/01 May 2009\*

Nb Sub Balwan Singh (No. 757959P), 05 May 2009/01 May 2009\*

Nb Sub Dharm Pal (No. 758227L), 02 May 2009/01 May 2009\*

Nb Sub Mehar Chand (No. 758233Y), 11 May 2009/01 May 2009\*

Nb Sub Satya Narayan Sharma (No. 757861F), 14 May 2009/01 May 2009\*

Nb Sub Hem Raj (No. 758238X), 06 May 2009/01 May 2009\*

Nb Sub Ram Asray Sharma (No. 757859K), 01 May 2009

Nb Sub Manmath Kumar Saho (No. 758237P), 14 May 2009/01 May 2009\*

Nb Sub G S Sampat (No. 757862K), 11 Jun 2009/01 May 2009\*

Nb Sub Alam Singh (No. 757935L), 16 Jun 2009/01 May 2009\*

Nb Sub Umesh Kumar (No. 757848X), 08 Jun 2009/19 Oct 2008\*

Hav to be Nb Sub Auto Tech (A Veh)

Raj Singh (No. 14564219P now JC-764038X), 01 Jul 2009

Hav to be Nb Sub Auto Tech (B Veh)

Jasvinder Kumar (No. 14560281K now JC-764039A), 30 Jun 2009/07 Jun 2009\*

Bhadra Kanta Borah (No. 14560406W now JC-764040P), 30 Jun 2009/07 Jun 2009\*

Jai Mangal Singh (No. 14560612A now JC-764041X), 23 Jun 2009/07 Jun 2009\*

Rameshwar Prasad (No. 14560616W now JC-764042A), 29 Jun 2009/07 Jun 2009\*

Birbal Rai (No. 14560617Y now JC-764043H), 01 Jul 2009

Suresh Singh (No. 14560622K now JC-764044L), 01 Jul 2009

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Rati Ram (No. 14578218X now JC-763997F), 21 Jul 2009/01 Jul 2009\*

Suhas Haval (No. 14585835H now JC-764120M), 01 Aug 2009

Ramakrishnan Kuniyil (No. 14579995M now JC-764124H), 01 Aug 2009

Adesh Kumar (No. 14584150X now JC-764128Y), 01 Aug 2009

Hav to be Nb Sub DW

Ashok Kumar (No. 14582690X now JC-764003F), 01 Jul 2009

G V Jagdeswara Rao (No. 14582170M now JC-764005M), 01 Jul 2009

Santram Maroti Thamke (No. 08030506L now JC-764046W), 29 Jun 2009/31 May 2009\*

Rakesh Kumar Srivastav (No. 14582145N now JC-764047Y), 01 Jul 2009/07 Jun 2009\*

Hav to be Nb Sub Master Tech (B Veh)

Krapa Sharan Singh (No. 14622474P now JC-764085P), 08 Jul 2009/07 Jun 2009\*

Maddila Raja Rao (No. 14620030M now JC-763943A), 22 Jul 2009/01 Jun 2009\*



Prakash L K (No. 14620035L now JC-763944H), 21 Jul 2009/01 Jun 2009\*

Bharat Singh (No. 14619243N now JC-764076N), 06 Jul 2009/01 Jun 2009\*

Ravinder Kumar (No. 14619992K now JC-764077W), 02 Jul 2009/01 Jun 2009\*

Manoranjan Kumar Singh (No. 14620843H now JC-764078Y), 30 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Brij Bhushan Singh (No. 14621050M now JC-764079F), 01 Jul 2009/01 Jun 2009\*

G Vairamuthu (No. 14621556L now JC-764080W), 07 Jul 2009/01 Jun 2009\*

Dilip P S (No. 14622341Y now JC-764081Y), 01 Jul 2009/01 Jun 2009\*

Kamalesh Mishra (No. 14622654X now JC-764082F), 02 Jul 2009/01 Jun 2009\*

Jaydip Mahakur (No. 14622495L now JC-764084M), 06 Jul 2009/07 Jun 2009\*

Rakesh Kumar Jha (No. 14622807W now JC-764088H), 17 Jul 2009/01 Jul 2009\*

Binu V (No. 14623173X now JC-764089L), 01 Jul 2009

Asim Uddin (No. 14623716Y now JC-764090A), 01 Jul 2009

Adhav Pandurang Ankush (No. 14624766W now JC-764091H), 12 Jul 2009/01 Jul 2009\*

Patil Jayvant Vasant (No. 14624449P now JC-764092L), 02 Jul 2009/01 Jul 2009\*

Rejimon KP (No. 14624574Y now JC-764093N), 01 Jul 2009

Deda Ram (No. 14624924A now JC-764094W), 01 Jul 2009

P Ravi (No. 14626109L now JC-764095Y), 02 Jul 2009/01 Jul 2009\*

Santosh Barik (No. 14607521K now JC-764096F), 11 Jul 2009/01 Jul 2009\*

Shivnath Singh (No. 14610733A now JC-764097K), 03 Jul 2009/01 Jul 2009\*

Sunil Kumar Tiwari (No. 14619419N now JC-764098M), 01 Jul 2009

Gele Hanumant Popat (No. 14619704M now JC-764099P), 01 Aug 2009

Guddoo Singh (No. 14620047A now JC-764100Y), 01 Aug 2009

Tarsam Singh (No. 14621517M now JC-764101F), 01 Aug 2009

Ram Bhajan (No. 14621268Y now JC-763947W), 08 Jul 2009/01 Jul 2009\*

Hav to be Nb Sub Master Tech (Comn)

Anil Kumar Tiwari (No. 14617560W now JC-764048F), 29 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Chavan Jaywant Babu Rao (No. 14617568H now JC-764049K), 06 Jul 2009/01 Jun 2009\*

Hirve Upkar Bhim Rao (No. 14617599H now JC-764050Y), 01 Jul 2009/01 Jun 2009\*

Bhanwar Singh (No. 14617753W now JC-764052K), 01 Jul 2009/01 Jun 2009\*

Ganesh Datt Dumka (No. 14617905M now JC-764053M), 01 Jul 2009/01 Jun 2009\*

Parsuram Sahoo (No. 14617914N now JC-764054P), 04 Jul 2009/01 Jun 2009\*

Sanjay Kumar (No. 14617927L now JC-764056A), 01 Jul 2009/01 Jun 2009\*

Biju Joseph (No. 14618182P now JC-764057H), 01 Jul 2009/01 Jun 2009\*

K. Durai Raju (No. 14618351L now JC-764058L), 01 Jul 2009/01 Jun 2009\*

Ashok Kumar Tiwari (No. 14618508A now JC-764059N), 01 Jul 2009/01 Jun 2009\*

Surendra Singh (No. 14618536M now JC-764060H), 04 Aug 2009/01 Jun 2009\*

Shaik Khaja Vali (No. 14618655H now JC-764063W), 29 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Kandru Srinivasa Rao (No. 14618704A now JC-764065F), 30 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Surendra Singh Rawat (No. 14618908M now JC-764066K), 16 Jul 2009/01 Jun 2009\*

Bhosale Ganpatrao Tukaram (No. 14619748K now JC-764067M), 30 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Ajay Choudhary (No. 14617587N now JC-764068P), 01 Jun 2009

Uday Pratap Singh (No. 14618057L now JC-764069X), 27 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Sunil Datt (No. 14618471K now JC-764070M), 27 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Suresh G S (No. 14618749A now JC-764072X), 08 Jul 2009/01 Jun 2009\*

P Rajeev (No. 14618880X now JC-764074H), 11 Jul 2009/01 Jun 2009\*

T Kunju Mon (No. 14620455L now JC-764075L), 30 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Kawar Pal (No. 14618667X now JC-764064Y), 25 Jun 2009/01 Jun 2009\*

Rama Das C V (No. 14618646F now JC-764062N), 09 Jul 2009/01 Jun 2009\*

B Raja (No. 14618918W now JC-764073A), 02 Jul 2009/  
01 Jun 2009\*

Hav to be Nb Sub SKT

Anil Kumar Kar (No. 14604784X now JC-763990X), 05 Jul  
2009

Hav to be Nb Sub Tech (SA)

Rajender Kumar (No. 14563805L now JC-764045N), 01 Jul  
2009/07 Jun 2009\*

Hav to be Nb Sub Welder

Govindaraju M (No. 14565660K now JC-764018K), 01 Jul  
2009

\*(Gtd ante dated seniority)

N K KASHMIRA  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 206, dated 6th April 2010—The President is pleased  
to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY ARMED CORPS RECORDS

To be Nb Ris

Dfr (Dvr/Opr) Kuldip Singh (No. 1099226F now JC-  
243512K), 11 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Kailash Chand Yadav (No. 1089212N now  
JC-243626P), 01 Jun 2009

Dfr (Opr/Gnr) Shiv Singh (No. 15461243F now JC-  
243642M), 27 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 07 Apr 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Gnr) Raj Kumar Singh (No. 1088273Y now JC-  
243643P), 23 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May  
2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Samander Singh (No. 15463269P now JC-  
243644X), 23 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May  
2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Vijendar Singh (No. 1089996A now JC-  
243649W), 02 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Sri Dinesh Singh Naroliya (No. 1081923Y  
now JC-243647L), 15 Jun 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 14 Jun 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Arjun Singh (No. 1089160H now JC-  
243708X), 31 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2008  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Balavinayagam P (No. 1089124X now JC-  
243710P), 31 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Raj Pal Singh (No. 1089126H now JC-  
243711X), 31 Jul 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Prem Narayan (No. 1088011H now JC-  
243719K), 15 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug  
2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Opr/Dvr) Karan Singh (No. 1098968P now JC-  
243754M), 03 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug  
2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Ram Prakash Singh Chouhan (No. 1098976N  
now JC-243755P), 28 Aug 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug  
2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Ajitesh Patra (No. 1099035M now JC-  
243778W), 02 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Harish Chander (No. 1099147M now JC-  
243777N), 15 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Samaso Kamar Ansari (No. 15461527L now  
JC-243779Y), 15 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Opr) Chaudhari Subash Dagadu (No. 1088316H  
now JC-243763N), 03 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2009  
without effect on pay and allowances)

Dfr (Dvr/Gnr) Surender Singh (No. 1088248A now JC-243767K), 07 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

Dfr (Gnr/Dvr) Subhash Kundu (No. 1089207H now JC-243769P), 07 Sep 2009\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

J ROY CHOWDHARY  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 207, dated 7th April 2010—The following Office Superintendents are promoted as Civilian Gazetted Officers (Assistant Record Officers) Group 'B' Gazetted in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,600/- in Record Offices of the Army from the dates noted against their names :—

Personal No., Name, Record Office, With effect from

5523054L Smt Bitdor Swer, Assam, 01 Jan 2009

5923004 RS Mishra, 39 GR, 01 Jan 2009

4624804K PM Purushothaman, Madras, 01 Jan 2009

4456632 Sohan Singh, Armd, 03 Jan 2009

3410864N Dig Vijay Kumar, Bihar, 07 Feb 2009

5323011 YP Sharma, Sikh, 01 Jul 2009

3410865 Mohd Abdullah, Arty, 13 Jul 2009

SANJAY SINHA  
Dir (CP)(P) MP 4 (Civ)

#### AIR BRANCH

No. 208, dated 7th April 2010—The President is pleased to make the following substantive promotion :—

INDIAN AIR FORCE  
(FLYING BRANCH)

To be Sub Air Marshal

LK Malhotra (13373), F(P), 01 Oct 2009

A K SINGH  
Dy Dir of Personnel (Officers)-2(B)

#### AIR FORCE BRANCH

No. 209, dated 7th April 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

To be CGO (E)

Name and PA No., Date of Promotion

SP Ali (28619), 01 Sep 2009

AS Kadam (28706), 01 Sep 2009

RR Ghandat (32052), 01 Sep 2009

Smt S Bhalavi (37288), 01 Sep 2009

R Bhalavi (37289), 26 Oct 2009

RC Meena (37336), 01 Sep 2009

Smt RV Sonawane (37326), 30 Sep 2009

Krishna Mahtao (37593), 14 Sep 2009

Smt Vinita Srivastava (29232), 01 Sep 2009

Smt Rita Ghosh (29230), 01 Sep 2009

HC Gupta (29364), 02 Sep 2009

Smt Malathi Shankar (29386), 22 Oct 2009

Smt Dayavanti Arora (29445), 10 Sep 2009

Smt MK Raju (29484), 01 Sep 2009

MS Subhash (29662), 01 Sep 2009

Rajshekar Kaushal (29701), 01 Sep 2009

AB Chakraborty (29841), 19 Oct 2009

UA JOSE  
Dir PC (AFC)

#### ARMY BRANCH

No. 210, dated 7th April 2010—

#### CORRIGENDUM

Lt to be Capt

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 28 Feb 2009 under the heading "Regular Army, Permanent Commission" and sub heading "Lt to be Capt" (Special List) the following amendment is made :—

For : SS-41890 Robbin Sangwan, Inf

Read : SS-41891 Robbin Sangwan, Inf

JASWANT SINGH  
Jt Dir  
MS-8C